प्रातः वासीन अंक:- 344 मुरादाबाद 09 April 2025 (Wednesday) भारत सरकार से रजिस्टर्ड पुष्ठ:- 08 RNI No.UPBIL/2021/83001 मुल्यः 3.00 रूपया

प्रसारित क्षेत्र-बरेली, पीलीभीत, बदायूं, कासगंज, एटा,बहराइच, संभल, श्रावस्ती, अलीगढ और उत्तराखंड

क्राउन प्रिंस शेख हमदान ने पीएम मोदी से की मुलाकात, पीआरडी जवानों के ड्यूटी भत्ते भारत-यूएई के संबंधों में और मजबूती पर दिया जोर में 26 फीसदी की बढ़ोतरी,

दुबई के प्रिंस शेख हमदान ने आज भारत पहुंचे। जहां उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। साथ ही दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच के रिश्चतें में और मजबूती पर जोर दिया। साथ ही पीएम मोदी ने कहा मुलाकात के बाद कहा किशेख हमदान की भारत यात्रा ने भारत और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के बीच मजबूत द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा दिया है।भारत और संयुक्त अरब अमीरात (यएई) के संबंधों और कई सारे अहम मुद्दों पर चर्चा के लिए मंगलवार को दुबई के ऋाउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन भारत पहुंचे। जहां उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात की। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद शेख



संक्षिप्त समाचार

सांसद जियाउर्रहमान बर्क से ढाई घंटे तक पूछताछ, SIT के सामने हुए पेश, कहा-जांच में करूंगा सहयोग संभल हिंसा मामले में सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क मंगलवार को

नखासा थाने पहुंचे और एसआईटी के सामने पेश हुए। तबीयत खराब होने के बावजूद उन्होंने कानून और संविधान में विश्वास जताते हुए जांच में सहयोग की बात कही। एसआईटी ने उन्हें दिल्ली स्थित आवास पर समन भेजा था।समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउररहमान बर्क संभल हिंसा मामले की जांच कर रही विशेष जांच टीम (एसआईटी) के समक्ष पेश होने के लिए नखासा थाने पहुंचे। इस मामले में उन्हें बयान के लिए समन भेजा गया था। एएसपी श्रीशचंद और सीओ कुलदीप सिंह ने उसने ढाई घंटे तक पूछताछ की।मंगलवार को कई अधिवक्ताओं के साथ सांसद सुबह 11.15 बजे थाने पहुंचे। पेशी से पहले सांसद ने कानून और संविधान में विश्वास जताते हुए जांच में पूरा सहयोग देने की बात कही है। सांसद ने कहा कि मैं कानून और संविधान में विश्वास करता हुं।न्यायपालिका पर मेरा भरोसा है। आज तबीयत ठीक नहीं है और डॉक्टर ने आराम की सलाह दी है। बावजूद मैं एसआईटी के सामने पेश हो रहा हूं ताकि पुलिस-प्रशासन को यह न लगे कि मैं जांच में सहयोग नहीं कर रहा। पेशी से पहले उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बयान दिया कि वह कानून और संविधान में पूर्ण विश्वास रखते हैं और जांच में हर संभव सहयोग करेंगे।गौरतलब है कि संभल में हुई हिंसा को लेकर एसआईटी जांच कर रही है। मामले में कई लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। इसी कड़ी में सांसद बर्क को भी बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया गया था। सांसद के बयान दर्ज कराने को लेकर पुलिस-प्रशासन पूरी तरह अलर्ट रहा एसआईटी ने सांसद को उनके दिल्ली स्थित आवास पर बीएनएसएस की धारा 35 के तहत नोटिस तामील कराया था। बयान दर्ज कराने का समय दिया था। एसपी कृष्ण कुमार विश्नोई ने

बताया कि शहर में लगातार

चौकसी बरती जा रही है।

मोहम्मद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर अपनी खुशी व्यक्त की।उन्होंने लिखा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर मुझे खुशी हुई। हमारी बातचीत ने यूएई और भारत के बीच संबंधों की मजबूती दो दिखाता है। उन्होंने कहा कि ये संबंध विश्वास पर आधारित हैं, जो इतिहास द्वारा आकारित हुए हैं और हमारे समान दृष्टिकोण से प्रेरित हैं, जिसमें अवसरों, नवाचार और स्थायी समृद्धि की दिशा में एक बेहतर भविष्य बनाने का लक्ष्य है। बता दें कि प्रिंस शेख हमदान के पीएम नरेंद्र

राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद रहें। पीएम मोदी ने भी जताई ख़ुशी- नई दिल्ली में दुबई के ऋाउन प्रिंस शेख हमदान से मुलाकात के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने भी खुशी जताते हुए भारत और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के बीच मजबूत द्विपक्षीय सहयोग

उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम से मिलकर खुशी हुई। दुबई ने भारत-यूएई व्यापक रणनीतिक

साझेदारी को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि यह विशेष यात्रा हमारी गहरी दोस्ती को दर्शाता है। साथ ही भविष्य में और भी मजबूत सहयोग का मार्ग प्रशस्त करती है। रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री जयशंकर ने भी की मुलाकात-रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी शेख हमदान से एक अलग बैठक की। इसको लेकर उन्होंने बताया कि भारत यूएई के साथ रक्षा क्षेत्र में मिलकर काम करने के लिए उत्सुक है, जिसमें सह-उत्पादन और सह-विकास परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया क्षेत्र में शांति और समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध हैं।साथ ही रक्षा मंत्री सिंह ने अपनी बैठक को उत्पादक बताते हुए कहा कि यूएई के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में दोनों देशों के बीच रक्षा, नवाचार और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ेगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी शेख हमदान से मुलाकात की और उन्हें भारत की पहली आधिकारिक यात्रा पर स्वागत करते हुए कहा कि वह भारत-यूएई के

दिन गुजरात इस चुनाव आंदोलन में

विजयी बन कर कांग्रेस के प्रति अपनी

वफादारी साबित कर देगा उस दिन

हम कांग्रेस अध्यक्ष नेहरू जी का

फूलों से स्वागत करेंगे और ह्रदय बिछा

कर उनकी आगवानी करेंगे%। नेहरू

कांग्रेस कार्यसमिति के केंद्र में रहे गांधी-नेहरू-पटेल, खरगे ने खोला नेहरू-पटेल की गहरी दोस्ती का राज

कांग्रेस आलाकमान ने मंगलवार को कांग्रेस कार्यसमिति (सीडब्ल्यूसी) की बैठक में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए रणनीति पर मंथन किया। इस दौरान जिला इकाइयों को अधिक अधिकार देने सहित संगठनात्मक सुधारों पर भी जोर दिया गया।गुजरात के अहमदाबाद में हो रही कांग्रेस पार्टी कार्यसमिति %सीडब्लूसी% की बैठक के केंद्र में %गांधी-नेहरू-पटेल% रहे। पार्टी अध्यक्ष मिल्लकार्जुन खरगे ने खुद नेहरू और पटेल की अटूट दोस्ती के बारे में बताया। उन्होंने पटेल और आरएसएस की विचारधारा पर भी अहम बात कही। खरगे ने कहा, पटेल साहब के प्रति नेहरूजी के मन में अपार आदर था। उनको कुछ सलाह लेनी होती तो वे खुद पटेल जी के घर जाते थे। पटेल जी की सुविधा के लिए सीडब्लूसी की बैठकें उनके निवास पर रखी जाती थीं। सरदार पटेल की विचारधारा, आरएसएस के विचारों के विपरीत थी। उन्होने तो आरएसएस पर बैन लगा दिया था। बतौर खरगे, अब हँसी आती है कि आज उस संस्था के लोग सरदार पटेल की विरासत पर दावा करते हैं।कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय स्मारक में हो रही है। मिल्लकार्जुन खरगे ने कहा, यह साल महात्मा गांधी जी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने की शताब्दी है। दिसंबर 1924 में राष्ट्रिपता महात्मा गांधी, मेरे गृह राज्य कर्नाटक के बेलंगाव कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे। यह शताब्दी समारोह हमने 26 दिसंबर को कर्नाटक में मनाया। गुजरात की धरती पर पैदा हुई तीन महान हस्तियों ने कांग्रेस का नाम दुनिया भर में रोशन किया। दादा भाई नौरोजी, महात्मा

गांधी व सरदार वल्लभभाई पटेल-ये



तीनों कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहे। गांधी जी ने हमें अन्याय के खिलाफ सत्य और अहिंसा का हथियार दिया। ये इतना मजबूत वैचारिक हथियार है कि इसके सामने कोई ताकत टिक नहीं सकती। आज सांप्रदायिक बंटवारा करके देश के बुनियादी मसलों से ध्यान भटकाया जा रहा है। दूसरी तरफ ओलीग्राफ्क मोनोपली देश के संसाधनों पर कब्जा करते हुए शासन को नियंत्रित करने की राह पर हैं। गांधी जी के नेतृत्व में जैसे चम्पारण सत्याग्रह सफल रहा था और उसने गांव-गांव में कांग्रेस की जड़ो को जमाने में मदद की वैसे ही गुजरात में सरदार पटेल के नेतृत्व में चला बारडोली सत्याग्रह और दूसरे किसान आंदोलन इतिहास में अमर हैं। इसी साल 31 अक्टूबर को सरदार पटेल जी की 150 वीं जयंती है। नेहरू जी उनको %भारत की एकता का संस्थापक% कहते थे। उनकी 150 वीं जयंती हम लोग देश भर में पूरे उल्लास से मनाएंगे। उन्होंने कहा कि सरदार साहेब कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उनके नेतृत्व में कराची कांग्रेस में मौलिक अधिकारों पर जो प्रस्ताव पारित हुए थे, वह भारतीय संविधान की आत्मा है। सरदार पटेल संविधान सभा की महत्वपूर्ण 'Advisory Committee

Fundamental Rights, Minorities and Tribal and e&cluded areas' के अध्यक्ष थे। खरगे ने कहा, पिछले कई सालों से कई राष्ट्रीय नायकों को लेकर एक सोचा समझा षड्यंत्र चलाया जा रहा है। 140 सालों से देश में सेवा और संघर्ष के गौरवशाली इतिहास वाली कांग्रेस पार्टी के खिलाफ वातावरण बनाया जा रहा है। ये काम वे लोग कर रहे है जिनके पास अपनी उपलब्धियां दिखाने को कुछ भी नहीं है। आजादी को लड़ाई में अपना योगदान बताने को कुछ भी नहीं है। खरगे ने आगे कहा, %वे सरदार पटेल और पंडित नेहरू के संबंधों को ऐसा दिखाने का षडयंत्र करते हैं जैसे दोनों नायक एक दूसरे के खिलाफ थे। जबकि सच्चाई ये है कि वो एक सिक्के के दो पहलू थे। तमाम घटनाएं और दस्तावेज इनके मधुर संबंधों की गवाह हैं। मैं 1937 में गुजरात विद्यापीठ में सरदार पटेल के एकभाषण का खास जिक्र करना चाहूंगा। उस दौरान नेहरू जी कांग्रेस के अध्यक्ष थे और गुजरात के नौजवान चाहते थे कि प्रांतीय चुनाव में प्रचार के लिए नेहरू जी को बुलाया जाए। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल ने 7 मार्च 1937 को कहा कि %जिस

से सरदार कितना स्नेह करते थे आप इससे समझ सकते हैं। 14 अक्तूबर 1949 को सरदार पटेल ने नेहरू के अभिनंदन ग्रंथ में कहा था कि %पिछले दो कठिन सालों में नेहरू जी ने देश के लिए जो अथक परिश्रम किया है, वो मुझसे अधिक अच्छी तरह कोई नहीं जानता है। मैंने इस दौरान उनको भारी भरकम उत्तरदायित्व के भार के कारण बड़ी तेजी के साथ बूढे होते देखा है। कांग्रेस अध्यक्ष ने यह भी कहा कि ये बातें पब्लिक रिकॉर्ड में दर्ज हैं। दोनों के बीच लगभग रोज पत्र-व्यवहार होता था। नेहरू जी तमाम विषयों में उनकी सलाह लेते थे। पटेल साहब के प्रति नेहरूजी के मन में अपार आदर था। उनको कुछ सलाह लेनी होती तो वे खुद पटेल जी के घर जाते थे। पटेल जी की सुविधा के लिए सीडब्लूसी की बैठकें उनके निवास पर रखी जाती थीं। बाबासाहेब डॉ० अम्बेडकर को संविधान सभा का सदस्य बनाने में गाँधी जी और सरदार पटेल की अहम भूमिका थी। डॉ. अम्बेडकर ने खुद 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा के अपने अंतिम भाषण में कहा था कि %कांग्रेस पार्टी के सहयोग के बिना संविधान नहीं बन सकता था।% जब संविधान बना तो आरएसएस ने गांधी जी, पंडित नेहरु, डाॅ० अम्बेडकर और कांग्रेस की बहुत आलोचना की। रामलीला मैदान पर संविधान और इन नेताओं के पुतले जलाए। ये भी कहा कि संविधान में मनुवादी आदर्शों से प्रेरणा नहीं ली

योगी कैबिनेट ने दी सौगात

योगी सरकार ने मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में पीआरडी जवानों का भत्ता बढ़ाने सहित कई प्रस्तावों को मंजूरी दी है। जवानों को बढ़ा हुआ भत्ता एक अप्रैल से मिलेगा।योगी सरकार ने प्रदेश में पीआरडी स्वयंसेवकों को सौगात देते हुए इनके ड्यूटी भत्ते में लगभग 26 फीसदी की बढ़ोतरी कर दी है। अब इन्हें ड्यूटी भत्ते के तौर पर 500 रुपये दिए जाएंगे। इसका लाभ प्रदेश के 34 हजार पीआरडी जवानों को मिल सकेगा। सीएम योगी की अगुवाई में मंगलवार को लोकभवन में आयोजित मंत्री परिषद की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई। इसके तहत पीआरडी जवानों का भत्ता 395 रुपये से बढ़ाकर अब इसे 500 रुपये कर दिया गया है। मौजूदा समय में प्रदेश में 34 हजार से अधिक पीआरडी जवान तैनात हैं और इस बढ़ी हुई राशि का लाभ इन सभी जवानों को मिल सकेगा। सरकार के इस कदम से प्रदेश के पीआरडी जवानों में ख़ुशी लहर है। अयोध्या में मंदबुद्धि छात्रों के लिए डे केयर सेंटर को मंजूरी। जिला दिव्यांग व सशक्तिकरण विभाग को जमीन



एक्सप्रेसवे और ईस्टर्न पेरीफेरल वे के ऋॉसिंग और इंटरचेंज का निर्माण एनएचएआई करेगा। पूरा खर्च केंद्र सरकार करेगी और टोल शुल्क से इस खर्च की भरपाई की जाएगी। जमीन का स्वामित्व यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के पास रहेगा। हाथरस में मेडिकल कॉलेज के लिए 6.67 हेक्टेयर जमीन चिकित्सा एवं शिक्षा विभाग को ट्रांसफर करने की मंजूरी। गई थी। फुल स्टाफ नियमावली में यह जमीन दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ की है। इस जमीन की दर वर्ष 1987 से ही ली जाएगी। इस तरह में इस जमीन को चिकित्सा विभाग कुल 1307 पद हैं। - यमुना

सपा मुखिया अखिलेश यादव जौनपुर दौरे पर, स्व. धर्मराज यादव को दी श्रद्धांजलि

के लिए 12,798 वर्ग मीटर जमीन

निशुल्क दी जाएगी। यह जमीन

सीतापुर आई हॉस्पिटल की सरप्लस

जमीन का एक हिस्सा है। उत्तर प्रदेश

अधीनस्थ सहकारी समितियां एवं

पंचायत लेखा परीक्षा की नियमावली

में बदलाव। अभी विभाग में प्रमोशन

की वजह से वरिष्ठ अफसर ज्यादा

और कर्मचारियों की संख्या कम हो

बदलाव कर इस पिरामिड को ठीक

किया जाएगा। निचले स्टाफ के 900

पद रहेंगे। इसके बाद 150 पदों का

प्रमोशन किया जाएगा। विभाग में

जौनपुर में पूर्व सीएम अखिलेश यादव आ रहे हैं। उन्होंने स्व. धर्मराज यादव को श्रद्धांजलि दी। समाजवादी पार्टी प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मंगलवार को शाहगंज पहुंचे। यहां कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इसके बाद खुटहन के पिलकिछा गांव

में उन्होंने खुटहन की पूर्व ब्लॉक प्रमुख सरजूदेई के पति धर्मराज यादव को श्रद्धांजलि अर्पित किया। मौके पर हजारों की संख्या

में कार्यकर्ता मौजूद रहे। अखिलेश यादव के आगमन को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह दिखा। इस मौके पर सपा जिलाध्यक्ष राकेश मौर्य समेत तमाम बड़े पदाधिकारी मौजूद रहे।

मोहन भागवत बोले- हमारे पूर्वज मैक्सिको से लेकर साइबेरिया तक गए, पर किसी का धर्मांतरण नहीं कराया



लखीमपुर खीरी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के प्रमुख मोहन भागवत मंगलवार को मुस्तफाबाद स्थित कबीरधाम आश्रम में आयोजित सत्संग सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे। उन्होंने कबीरधाम का भ्रमण किया। इसके बाद संतों से मुलाकात की।राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत ने कहा कि चाहे हमारी भाषा अलग हो, हमारे क्षेत्र अलग हों, हम विभिन्न धर्म को मानने वाले हों, पर हमारी एक ही माता है वह भारत माता है। उस भारत माता की भक्ति को हमें सदैव आगे रखना है। संघ प्रमुख ने मंगलवार

मुस्तफाबाद स्थित कबीरधाम में कहीं।संघ प्रमुख यहां पर असंग देव भक्त भवन के शिलान्यास समारोह और सत्संग सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे। संघ प्रमुख ने कहा कि हमारे पूर्वज मैक्सिको से लेकर साइबेरिया तक गए। वहां के लोगों को ज्ञान और संस्कृति का उपहार दिया, पर हमने किसी को पराजित नहीं किया। किसी का धर्म परिवर्तन नहीं कराया। प्रेम ही भारत का संदेश है और वैसा ही हम सब का जीवन होना चाहिए।संघ प्रमुख ने संतों से की मुलाकात मोहन भागवत मंगलवार को पूर्वाह्न करीब 11=30 बजे को यह बातें लखीमपुर खीरी के कबीरधाम पहुंचे। यहां पर राष्ट्रीय

संत असंग देव के साथ ही डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल और एसपी संकल्प शर्मा ने उनकी अगवानी करते हुए स्वागत किया। इसके बाद डॉक्टर मोहन भागवत ने संतों से मुलाकात की अपराह्न करीब 3-00 बजे डॉक्टर मोहन भागवत संत असंग देव के साथ मंच पर पहुंचे जहां पर उन्होंने असंग देव भक्ति भवन का शिलान्यास किया। इसके बाद असंग देव ने अपना संबोधन किया। वहीं संघ प्रमुख मोहन भागवत के कार्यक्रम के चलते सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए। कई जगह बैरिकेडिंग लगाई गई। बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया

संपादकीय Editorial

much tension over Ram?

We are surprised and questioning our own conscience. Why can't we celebrate Ram Navami with ease and harmony? Why does it become necessary to seek permission from the High Court for Ram Navami procession and other events? Why has Mamata Banerjee's government in West Bengal been creating hurdles during Ram Navami? Mamata is also a Hindu. Ram belongs to her too. Ram belongs to every creature in the entire universe. Ram is an incarnate man Mamata Banerjee has been worshipping Maa Kali and Durga. Then why does the proclamation of 'Jai Shri Ram' seem like an abuse to her and she starts losing her temper? Why are government restrictions imposed on Ram Navami events year after year? The Constitution has also granted the fundamental right of 'religious freedom' to Hindus, Ram-devotees. Is organising Ram's procession and celebrating the festival with faith also a crime or sin? Mamata Banerjee is the Chief Minister of Bengal, hence she is the public representative of every citizen, the constitutional guardian. As a government it is their responsibility to ensure that the average citizen can celebrate his festivals with joy and enthusiasm, but not only in Bengal, but also in states like Bihar, UP Maharashtra and Jharkhand, on the day of Ram Navami, a dreadful tension prevailed in the name of Ram. Security guards were put in place. 'High alert' had to be declared in 42 districts of UP and 10 sensitive districts of West Bengal. Why has the Sambhal region of UP become the 'Kurukshetra of communalism'? Security forces and police had to take out 'flag marches' in the Howrah area of ??Bengal and many cities of UP guards and barricades were put in place at every nook and corner. Drones were used CCTV surveillance had to be done as well. Was it the day of 'Ram Navami' festival or was there a fear of a terrorist attack? These security cordons did not seem comfortable. After all, what were the reasons for such widespread tension? Has religious tolerance ended in the country? Why are situations of communal conflict like Holi vs Alvida Juma Navratri vs Eid ki Namaaz being created? Are the governments themselves failing? Or are the governments themselves creating riot-like situations? How long will this continue in the country? In Bengal, the Mamata government has been imposing bans on Hindu festivals like Ram Navami Durga Puja, Hanuman Jayanti in the past years too. Ultimately one has to resort to the court. Mamata Banerjee has alleged that the central government is instigating riots. It is making humans fight humans. In response to this, the Leader of Opposition in the Bengal Assembly, Shubhendu Adhikari. called upon BJP and Hindu workers to roam around the city all day with a saffron flag on their car or bike. Flags of one's identity should also be put up on shops. Such statements can prove to be provocative. It was claimed that thousands of processions will be taken out and Shri Ram Mahotsay will be organized at about 5000 places. The administration and the court have instructed that no one will participate in the procession with weapons. Has Ram Navami been celebrated with weapons? Actually, both Mamata and BJP are playing the game of polarizing the vote bank and ultimately winning the elections. It is estimated that about 1.5 crore Hindus participated in the processions. These events could have been symbolic as well. However, if Hindu-Muslim conflicts start taking place in the country. then this situation is not good for the allround development of India. Parties should avoid polarization.

Heat wave taking the form of a disaster is not only a physical crisis but also a serious issue for socio-economic conditions.

If we want to avoid the heat wave, then efforts will have to be made to make the environment environment friendly at the town-village level because the rising temperature is having a harmful effect on the health system. In the government or private sector, working hours will have to be planned till 10 am and then from 5 pm in the evening. Greenery will have to be increased in the country and water sources will have to be conserved. This time the heat has started showing its effect in the beginning of April itself. Many state governments have issued warnings regarding heat wave, but in them there is more emphasis on the arrangements in the hospital for treatment after heat wave. To deal with the heat wave, the National Disaster Management Authority (NDMA) has issued an advisory to all the states and asked them to make an action plan to deal with it. Although such plans are made every year. Despite this, people die. A standing committee of the Union Home Ministry has suggested that heat wave should also be included in the newly emerging disasters. The committee says that in the ten years after 2013, 10,635 people died due to heat stroke in the country and now its effect is becoming widespread. Between 2020 and 2022, the number of deaths due to heat stroke in the country increased from 530 to 730. Heat wave not only causes physical distress to humans, but it also has a socioeconomic adverse effect on the lower class, people working in the open such as traffic police, gig-workers, street-rickshaw pullers as well as farmers and laborers. Heat wave is usually caused by stagnant air. High pressure systems move air downward. This downward flowing air acts like a cap. It collects hot air at one place. Without wind, it cannot rain. The growing concrete jungles in cities are also increasing the lethality of these hot winds. There is no way to prevent hot air from getting hotter. The average temperature of the human body is 37 degrees Celsius. When the outside temperature is more than 40 and there is absolutely no moisture in the air, it turns into a deadly heat wave. Five years ago, the 'Climate Change Assessment Report' of the Union Ministry of Earth Sciences warned that by the end of 2100, the heat waves or hot winds blowing in India during summer (April-June) may increase three to four times. Their average duration is also estimated to double. Although the effect of heat wave will increase in the entire country, but its impact will be more severe in the densely populated areas of the Ganges river basin. It has been warned that due to increasing heat and less rainfall in monsoon during the last six decades, the number of drought-affected areas in the country is increasing. It is worrying that the drought-affected area is increasing by 1.3 percent per decade. Apart from this, the Climate Transparency Report, 2022, prepared in collaboration with international organizations, says that due to the severe heat in 2021, there was a loss of about Rs 13 lakh crore in the service, manufacturing, farming and construction sectors in India. Due to the increase in heat, 167 billion hours of potential labour was lost, which is 39 percent more than in 1999. According to this report, if the temperature increases by one and a half percent, the loss caused by floods every year can increase by 49 percent. At the same time, the devastation caused by cyclones will also increase. In the same sequence, the Lancet Countdown report says that the number of deaths due to extreme heat in India increased by 55 percent between the years 2000-04 and 2017-21. Last year, the Food and Agriculture Organization of the United Nations conducted a survey among one lakh people in India and said that due to heat/heat, poor families suffer five percent more economic loss than the rich. Financially well-off people adapt their work according to the increasing temperature, while the poor are not able to do so. Despite this, why have we not yet been able to make any suitable action plan to avoid heat? The Ahmedabad Municipal Corporation opens all its gardens for street vendors and other open workers from one to five in the day. This gives those working in the open the opportunity to stay under the shade of trees during the peak of the heat wave. Recently, street traders in Mumbai have also demanded the opening of such parks. This is a small experiment in which the existing structure helps in avoiding the heat wave without any additional cost. In some cities of Odisha, green transparent shades have been installed on traffic red lights, which provides some relief to two-wheeler drivers. Apart from this, opening as many public drinking water stalls as possible can also give a big fight to the heat wave. It is certain that the way the weather is changing, we have to face irregular and extreme forms of weather such as increase in temperature. If we want to avoid the heat wave, then efforts will have to be made to make the environment environmentally friendly at the town-village level, because the increasing temperature is having a harmful effect on the health system. In the government or private sector, working hours will have to be planned till 10 am and then from 5 pm in the evening. Along with the provision of sheds, fans etc. for the hardworking people who are forced to work in the open, it is also necessary to have a plan for better health care. Greenery will have to be increased in the country and water sources will have to be conserved.

Priority of research and development, India's entry in global supply chain is strong

By increasing investment in R&D, India can not only solve domestic problems but can also become a medium to solve complex global issues. This will also help in attracting foreign investment. It is also important in technological sovereignty. Remember that a campaign like Atmanirbhar Bharat can be successful only by indigenous technological development in areas like defense, space, electronics and pharma. China's farsighted thinking has played an important role in its amazing progress. China started investing in research and development i.e. R&D long ago. The ability it acquired to produce competitive products at low cost made it the leader in the global manufacturing market. China started moving from a system of state-owned enterprises to an innovation-centric economy. The result of this came in the form of giant companies like Huawei, Alibaba and BID. The list of such companies seems endless. China spends 2.6 percent of its GDP on R&D, which shows how serious it is about materializing its ambitious plans for the future. India has also made a lot of progress on this front during the last decade, but it is still inadequate compared to global competitors in terms of investment and production. India is investing only 0.64 to 0.7 percent of its GDP on R&D. China has already been mentioned above, while the US also spends 3.47 percent of its GDP on R&D. Both these economies are much bigger than India, so one can easily guess how huge the total amount would be. It is clear that limited investment in this important item is affecting India's prospects. Despite limited investment, if we look at the performance, India has left its mark on the global innovation

India, which was ranked 81st in 2015 in the list of 133 countries in the Global Innovation Index, reached 39th position in 2024. This remarkable improvement in performance reflects India's expanding digital infrastructure, better connectivity between academia and industry, and a rapidly growing startup ecosystem. However, financial commitments are not matching this progress as expected. In such a situation, the private sector will have to increase investment. Private investment in R&D is currently around 36.4 percent in terms of GDP, whereas in large economies like the US and China, this contribution of the private sector is in the range of 75 to 77 percent. In such a situation, it is not possible to achieve favorable results in the case of industrial revolution without the active participation of the private sector. Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has recently shown the right mirror to the Indian startup ecosystem by comparing it with China. His concern over the attitude of the Indian ecosystem is justified.

Even though there are more than 1.5 lakh registered startups in India, most of these are related to e-commerce, food delivery and gig economy. In comparison, China's emphasis is on deep-tech, AI and hardware innovation and the creation of indigenous tech giants. India's relative backwardness in this is not only related to aspirations but also structural. The industry does not get the required number of workers, lack of resources for research and development and limited patent capital do not generate the risk-taking capacity that is required for real innovation and long-term investment. In such a situation, Goyal's comment 'Will we continue to make ice cream and chips' may seem a bit harsh, but there is a deep meaning hidden in it. To change the situation, we will have to set our priorities and give them a concrete form. Increasing investment in R&D by the public and private sectors will be the first step in this. We have to ensure that investment in R&D accelerates long-term economic growth. It should increase innovation, become the basis for the emergence of new industries, increase productivity and create high-level jobs. In an economy like India, this can be a catalyst for high growth. Investment in R&D is also necessary to improve global competitiveness. On the basis of technological innovation, Indian companies can increase their penetration in high-profit international market sectors like pharma, electronics, green energy and AI. In the absence of a strong R&D structure, India will depend on foreign technologies and fall behind in the global supply chain. The usefulness of R&D investment in solving challenges ranging from healthcare to climate change and food security to clean energy is also not hidden from anyone. While government investment will be useful in public systems and national missions, private sector investment will be beneficial in affordable and scope-enhancing innovations. By increasing investment in R&D, India can not only solve domestic problems, but will also become a medium to solve complicated global issues. This will also help in attracting foreign investment. It is also important in technological sovereignty. Remember that only indigenous technological development in areas like defense, space, electronics and pharma can make a campaign like Atmanirbhar Bharat successful. Development of domestic R&D capabilities not only reduces dependence on imports but also acts as a shield to protect the economy from external shocks. It will also increase national capabilities in science and technology. This also forms the basis of academic excellence. At a time when US President Donald Trump has sounded the bugle of tariff war, this disaster of a kind has brought new opportunities for India. While Trump has imposed higher import duty on India's major competitor countries, he has given some concessions to India in comparison. In such a situation, if India can increase its share in the global supply chain by increasing its capabilities, then the key to this lies in increasing investment in research and development. For India, increasing this investment is no longer an option but an imperative.

निर्यातक के बेटे के घर हुई लूट 30 से अधिक अवैध निर्माण

मुरादाबाद- सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में निर्यातक के बेटे के घर लूटपाट करने वाले तीन बदमाशों को पुलिस ने

गिरफ्तार कर लिया है। बदमाशों ने निर्यातक के बेटे के घर से मात्र 100 रुपये और एक मोबाइल लुटा था। तीन घंटे घर को खंगालने के बाद बदमाशों को जेब में 100 रुपये ही मिले थे। मुख्य आरोपी अभी तक पुलिस के हत्थे नहीं लगा है। थाना सिविल लाइंस क्षेत्र की जिगर कालोनी में निर्यातक अख्तर हुसैन का बेटा नासिर हुसैन साइबर थाने के पास तीन मंजिला घर में अकेले रहते हैं। नासिर हुसैन रोजाना की तरह मकान की तीसरी मंजिल पर सो रहे थे। शनिवार तड़के लगभग चार बजे बदमाश मकान में दाखिल हो गए



थे। लूटपाट करने के बाद बदमाश नासिर हुसैन को शौचालय में बंद करके भाग गए थे। नासिर हुसैन ने घर से एक सोने का हार, लैपटाप, मोबाइल और कीमती कपड़े लूटने की बात बताई थी। बदमाश घर में लगे सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर भी उखाड़कर ले गए थे। पुलिस ने घटना को गंभीरता से लेते हुए बदमाशों को पकड़ने के लिए सीओ सिविल लाइंस कुलदीप कुमार गुप्ता के नेतृत्व में पुलिस की टीम गठित की थी। साथ ही एसओजी की टीम को भी लगा दिया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज से शिनाख्त कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की पूछताछ में जब बदमाशों ने बताया कि हमने मात्र 100 रुपये और मोबाइल की लूट की है तो शुरुआत में पुलिस को भी विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब बार-बार पूछताछ के बाद भी उन्होंने बयान नहीं बदले तो पुलिस ने नासिर हुसैन को भी पूछताछ के लिए थाने बुला लिया। आमना-सामना कराने के बाद यह स्पष्ट हो गया की बदमाशों ने 100 रुपये और मोबाइल की ही लूट की है। सोमवार को दोपहर में प्रेसवार्ता करके मामले का पर्दाफाश करते हुए एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि लूटपाट करने वाले शावेज उर्फ सपेरा, उबेद उर्फ बीडी, अदि उर्फ दतुआ निवासी चक्कर की मिलक को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से लूटी हुई नकदी में से 60 रुपये और मोबाइल बरामद किया है। फरार आरोपी मोनू उर्फ मोलू उर्फ रहमान कई दिनों से नासिर हुसैन के घर की रेकी कर रहा था। चारों बदमाशों को यह पता था कि वह घर में अकेला रहता था। शराब पीकर रात में देर से पहुंचता है और निर्यातक का बेटा होने की जानकारी मिली तो बदमाशों को लगा की घर में अच्छी खासी नकदी होगी। इसलिए इन्होंने लूटपाट की योजना बनाई। उन्होंने बताया कि नासिर हुसैन शराब पीने का आदी है। इसलिए के चलते परिवार से भी संबंध अच्छे नहीं है। पत्नी छोड़कर जा चुकी है। कोई काम भी इस समय नहीं कर रहा है। फरार आरोपी की तलाश की जा रही है। जल्द ही उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

बच्चों के विवाद में युवक ने ब्लेड से काट दी बच्चे की गर्दन, भेजा जेल

मुरादाबाद- मझोला थाना क्षेत्र के जयंतीपुर में पड़ोसी ने बच्चों के विवाद में एक बच्चे की ब्लेड से गर्दन काट दी।



गंभीर हालत में बच्चे को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ जानलेवा हमले की रिपोर्ट दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है। थाना मझोला के जयंतीपुर चौकी क्षेत्र में जन्नतनगर आम के पेड़ के सामने वाली गली में रहने वाला मोहम्मद जाकिर मजदूरी करता है। जाकिर के अनुसार बीते रविवार की दोपहर उनका बेटा फैसल (12) गली में कुछ

बच्चों के साथ खेल रहा था। उसी दौरान किसी बात को लेकर उसका पड़ोसी इकरार के बेटे से विवाद हो गया। पड़ोसी के बेटे ने जाकर अपने पिता इकरार से घटना की शिकायत की। आरोप है कि इसके बाद इकरार फैसल के पास पहुंचा और जान से मारने की नीयत से उसका मुंह दबाकर ब्लेड से उसकी गर्दन काट दी। चीख पुकार मचने पर लोग एकत्रित हुए तो आरोपी वहां से भाग गया। बाद में लहूलुहान हालत में फैसल को लेकर परिवार के लोग जिला अस्पताल पहुंचे। जहां भर्ती करके उसका उपचार किया जा रहा है। उसकी गर्दन पर 16 टांके लगे हैं। बेटे को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद पिता मोहम्मद जाकिर ने थाने पर पहुंच कर तहरीर दी। इस संबंध में थाना मझोला के प्रभारी निरीक्षक आरपी शर्मा ने बताया कि तहरीर के आधार पर आरोपी इकरार के खिलाफ जानलेवा हमला हमले की रिपोर्ट दर्ज कर सोमवार को जयंतीपुर चौकी प्रभारी प्रबोध कुमार की टीम ने आरोपी इकरार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार पूछताछ में आरोपी ने कहा कि फैसल उसके बेटे को परेशान कर रहा था इसलिए गुस्से में उसने गर्दन पर हमला कर दिया। थाना के प्रभारी निरीक्षक ने बताया आरोपी इकरार को सोमवार दोपहर कोर्ट में पेश किया गया। जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है।

शिकायत की जांच करने पहुंचे चार पुलिस कर्मियों को बनाया बंधक, महिला समेत चार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज

दबंगई = सूचना पर पहुंचे चौकी इंचार्ज ने पुलिसकर्मियों को किसी तरह बंधक मुक्त कराया, आरोपियों ने पुलिस कर्मियों से की अभद्रता

मुरादाबाद- मझोला थाना क्षेत्र के लाइनपार में एक शिकायती पत्र के आधार पर जांच करने पहुंचे चार पुलिसकर्मियों

को घर में बंधक बना लिया। उनके साथ अभद्रता करते हुए धका मुक्की की गई। जिसके बाद काफी देर तक हंगामा हुआ। सूचना पर पहुंचे चौकी इंचार्ज ने पुलिसकर्मियों को किसी तरह बंधक मुक्त कराया। पुलिस ने एक महिला समेत चार लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थाना कटघर क्षेत्र के मोहल्ला शिवपुरी निवासी अर्चना शर्मा ने पिछले दिनों कटघर पुलिस को एक प्रार्थना पत्र दिया था। जिसमें मझोला थाना क्षेत्र के लाइनपार निवासी मुनेंद्र पर रुपये नहीं देने का आरोप लगाया था। पिछले



थी, लेकिन वह नहीं पहुंच रहा था। जिसके चलते सोमवार की दोपहर कटघर थाने में तैनात दो सिपाही रामतलैया चौकी पर पहुंचे और मामले की जानकारी चौकी इंचार्ज को दी। चौकी इंचार्ज ने चौकी से दो सिपाही और भेज दिए। चारों पुलिसकर्मी मुनेंद्र के घर पहुंचे तो वह नहीं मिला। जानकारी करने पर पता चला कि वह राजेश शर्मा के घर बैठा हुआ है। पुलिस उसके घर पहुंच गई। पुलिस मुनेंद्र से बात कर रही थी। तभी मकान स्वामी राजेश शर्मा, भाई गौरव शर्मा और पत्नी प्रीति आ गई। पुलिसकर्मियों के साथ अभद्रता करते हुए घर का दरवाजा बंद कर उन्हें बंधक बना लिया। सिपाहियों ने दरवाजा खुलवाने का प्रयास किया तो उनके साथ धक्का मुक्की की गई। इससे हंगामा हो गया। मामले की जानकारी चौकी इंचार्ज विपिन कुमार को दी गई। वह पुलिस बल के साथ पहुंच गए। उन्होंने किसी तरह दरवाजा खुलवाया और सिपाहियों को बंधक मुक्त कराया। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि चारों आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। उनकी तलाश की जा रही है।

का खुलासा, तीन गिरफ्तार पर चला बुलडोजर, दो मंजिला निर्माण भी किया ध्वस्त

मुरादाबाद- दुकान आवंटन के बाद भी फड़ घेरने वाले फल-सब्जी आढ़ितयों द्वारा किए गए अवैध निर्माण को सिटी मजिस्ट्रेट व मंडी की सभापित किंशुक श्रीवास्तव ने पुलिस बल की मौजुदगी में जेसीबी से ध्वस्त करा दिया। दोपहर

12 बजे से शाम 6 बजे तक चले अभियान में 30 से अधिक अवैध रूप से बने पक्के निर्माण को ध्वस्त किया गया। हालांकि आढ़तियों ने हल्का फुल्का विरोध किया लेकिन, पुलिस फोर्स ने विरोध करने वालों को बलपूर्वक मौके से हटा दिया। सिटी मजिस्ट्रेट से आढ़ितयों की पैरवी करने पहुंचे भाजपा महानगर अध्यक्ष ने



वार्ता की। जिसमें कच्चे रूप से बने फड को छोड़ने की बात पर सहमित बनी। अवैध निर्माण को ध्वस्त करने का खर्च भी संबंधित आढितयों से ही वसूला जाएगा। फल सब्जी मंडी में कुछ आढितयों और गल्ला व्यापारियों ने मंडी द्वारा बनाई दुकानों के आगे खाली पड़े मैदान में अवैध तरीके से पक्की बाउंड़ी कर ली। किसी ने गेट लगा लिया तो किसी ने मंडी के द्वारा बनाई गई दुकान पर ही दो मंजिला पक्का निर्माण कर लिया था। जिसको लेकर सोमवार की सुबह मंडी में अवैध रूप से किए गए पक्के निर्माण को हटाने के लिए अनाउंसमेंट कराया गया। इसके बाद दोपहर 12 बजे से शाम 6 बजे तक 30 से अधिक अवैध निर्माण को जेसीबी ध्वस्त किया गया। मंडी सभापति किंशुक श्रीवास्तव ने पुलिस फोर्स की मौजूदगी में मंडी में कराए गए अवैध निर्माण पर जेसीबी चलनी शुरू हुई तो आढ़ती विरोध में जुटने लगे। उन्होंने सभापित से मंडी में चल रही जेसीबी को रोकने के लिए कहा। लेकिन, मौके पर मौजूद पुलिस क्षेत्राधिकारी व स्थानीय थाने की पुलिस ने मौके जुटे आढ़ितयों को हटा दिया। इसके बाद जेसीबी से अवैध निर्माण के लिंटर, गेट और बाउंड्री को ध्वस्त करा दिया गया। आढ़ितयों के पक्ष में भाजपा के महानगर अध्यक्ष गिरीश भड़्ला भी पहुंचे। उन्होंने सभापित से अवैध निर्माण को आढ़ितयों द्वारा खुद तोड़ने के लिए मौका देने की बात कही। जिस पर सभापित ने बताया कि एक माह पहले से इन सभी को स्वयं अवैध निर्माण ध्वस्त करने का मौका दिया जा चुका है। महानगर अध्यक्ष की बात पर कच्ची व्यवस्था में कारोबार कर रहे फड़ आढ़तियों के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने का आश्वासन दिया। शाम तक चली कार्रवाई के दौरान मंडी परिसर और सड़कों पर किए अवैध निर्माण को ध्वस्त कर मंडी की भूमि को कब्जा मुक्त करा दिया गया। इस दौरान मंडी सचिव महादेवी के अलावा मंडी के इंस्पेक्टर व अन्य स्टाफ भी मौजूद रहा। मंडी में अवैध रूप से किए गए पक्के निर्माण की शिकायत मुख्यमंत्री और प्रमुख सचिव से की गई थी। जिसके बाद पक्के निर्माण को गिरा कर मंडी की भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराया जा रहा है। कुछ आढ़ती इसका विरोध कर रहे थे। जिन्हें उनके द्वारा गलत रूप से पक्के निर्माण करने की बात बताई गई। जिन आढ्तियों का अवैध निर्माण गिराया गया है उन्हीं से इसके ध्वस्तीकरण में आए खर्च को वसूला जाएगा। इसके लिए सभी आढ़तियों को खर्च वसूली की नोटिस दी जाएगी- किंशुक श्रीवास्तव, सिटी मजिस्ट्रेट एवं

सीएम ग्रिड परियोजना के कार्य में बरसात से पहले दिखानी होगी तेजी, यह मिलेंगी सुविधाएं 25 करोड़ रुपये की लागत से हो रहा है डेढ़ किलोमीटर लंबी सुविधायुक्त सड़क का निर्माण

मुरादाबाद- नगर विकास विभाग की ओर से मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रकर डेवलपमेंट स्कीम (सीएम ग्रिड) के अन्तर्गत 25 करोड़ रुपये की लागत से चौधरी चरण सिंह चौक से लेकर केल्टन स्कूल तक 1.5 किलोमीटर लंबी



अन्यथा बारिश होने पर इस क्षेत्र के लोगों को आवागमन में और मुसीबत होगी। मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफास्ट्रकर डेवलपमेंट स्कीम (सीएम ग्रिड) के अंतर्गत चयनित चौधरी चरण सिंह चौक से केल्टन स्कूल तक की सुविधायुक्त सड़क निर्माण में तेजी दिखानी होगी। बरसात से पहले इसके कार्य में तत्परता से आगे का काम आसान हो जाएगा। इस कार्य का 23 जनवरी को लखनऊ से आए अर्बन रोड डेवलपमेंट इंफास्ट्रक्रर अथॉरिटी (यूरिडा) के अधिकारियों व कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधियों ने निरीक्षण किया था। इसकी कार्यदायी संस्था आरसीसी डेवलपर्स है। इसकी निगरानी अर्बन रोड डेवलपमेंट इंफास्ट्रकर अथॉरिटी (यूरिडा) की ओर से किया जा रहा है। 23 जनवरी को यूरिडा के डिप्टी सीईओ एके श्रीवास्तव व दो अन्य सदस्यों ने यहां आकर स्थलीय निरीक्षण किया था। बीच में कार्य की गति सुस्त होने व सड़क के लिए की गई खोदाई के चलते लोगों को समस्या हो रही थी। बरसात से पहले इस कार्य में और तेजी दिखानी होगी।नगर निगम के मुख्य अभियंता दिनेश चंद्र सचान का कहना है कि कार्यदायी संस्था के प्रतिनिधियों को कार्य में निरंतरता और तेजी के लिए निर्देश दिया जा रहा है। कार्य की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान है। उन्होंने बताया कि चौधरी 1.5 किलोमीटर लंबी यह सड़क 25 करोड़ रुपये की लागत से बन रही है। इसमें पार्किंग, ओवरहेड वॉयर, वेंडिंग जोन, अंडरग्राउंड केबिल, ड्रेनेज की बेहतर व्यवस्था रहेगी। भविष्य में सीवर पाइपलाइन के लिए सड़कों की खोदाई करने से मुक्ति मिलेगी। इस समय ड्रेनेज व सीवर पाइपलाइन का कार्य कराया जा रहा है। यह मिलेंगी सुविधाएं सभी प्रकार की केबिल व अन्य सुविधाओं को भूमिगत किया जाएगा। जैसे गैस पाइपलाइन, सीवरेज पाइपलाइन आदि के लिए पहले से ही पाइप डालने की व्यवस्था रहेगी। ग्रीन बेल्ट, रोड साइड प्लाजा भविष्य में सड़क की खोदाई से मुक्ति मार्ग के दोनों ओर डेडिकेटेड वेंडिंग जोन स्ट्रीट लाइट, फुटपॉथ की व्यवस्था पार्किंग सुविधा व अन्य कई जनोपयोगी सुविधा

संक्षिप्त समाचार

क्फ संपत्तियों का नए सिरे से होगा भौतिक सत्यापन, बुलडोजर से जाएगा निर्माण...माफिया में मची खलबली

मुरादाबाद- जनपद में वक्फ संपत्तियों पर स्कूल, कॉलेज और अस्पताल

जाएंगे। शासन ने जिलाधिकारी



भौतिक सत्यापन कराने के लिए कहा है। सत्यापन के बाद भूमाफिया के कब्जे से वक्फ संपत्तियों पर हुए अतिऋमण पर सरकार बुलडोजर चला कर कब्जा मुक्त कराएगी। वक्फ संपत्तियों के सत्यापन के दौरान जिले में सिक्रय शिया और सुन्नी बोर्ड कार्डधारियों के पास मौजूद दस्तावेजों से मिलान कराएगा। सत्यापन के आदेश से माफिया में खलबली मची हुई है। सोमवार को जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी दिलीप कुमार ने बताया कि सरकार की ओर से जिले में मौजूद 2854 वक्फ संपत्तियों का भौतिक सत्यापन करने के निर्देश मिले हैं। जिलाधिकारी के निर्देशन में वक्फ संपत्तियों का तहसील स्तर पर उपजिलाधिकारी और तहसीलदार के स्तर से सत्यापन कराया जाएगा। ऐसी संपत्तियों के सत्यापन में शिया और सुन्नी बोर्ड के अध्यक्ष के पास भूमि के दस्तावेज से भूमि का मिलान किया जाएगा। इसके साथ सत्यापन का विरोध करने वालों पर कार्रवाई भी की जाएगी। ऐसी संपत्ति पर हुए अवैध निर्माण पर सरकार का बुलडोजर चलेगा। सरकार ने वक्फ संपत्तियों पर स्कूल, अस्पताल के साथ गरीबों के लिए आवास बनाने का फैसला लिया है। इस कानून को लेकर सरकार सख्त है। सत्यापन के बाद वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जा करने वालों को कड़ी कार्रवाई से निपटना होगा। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने डीएम को वक्फ संपत्ति की सूची भेजी है, सत्यापन के बाद मुख्यमंत्री को वक्फ संपत्ति की सूची भेजी जाएगी। वक्फ संपत्तियों के फिर से सत्यापन का कोई आदेश नहीं आया है। यदि आदेश आता है तो देखेंगे। नए बिल के अनुसार जो निर्देश मिलेंगे उनका पालन कराया

छह साल की बच्ची से रेप के आरोप में युवक को मुंह काला कर घुमाया, डंडों और बेल्ट से पीटते हुए ले गए थाने

मुरादाबाद- छह साल की बच्ची से रेप के आरोप में आक्रोशित लोगों ने



युवक को मुंह काला कर घुमाया और डंडो और बेल्ट से पीटते हुए सिविल लाइंस थाने लगे गये। बीच सड़क पर कुछ लोगों द्वारा एक व्यक्ति की बेल्ट और डंडों से पिटाई करते हुए वीडियो सामने आया है।

दैनिक अखबार क्यूँ न लिखूँ सच को जिला एवं तहसील स्तर पर ब्योरो संवाददाता व विज्ञापन प्रतिनिधि चाहिए

9027776991

knlslive@gmail.com

क्यूँ न लिखूँ सच

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक नरेश राज शर्मा द्वारा ए०एच०प्रिंटर्स, ए-11, असालतपुरा, लंगड़े की पुलिया, मुरादाबाद-244001(उत्तर प्रदेश) से छपवाकर कार्यालय म.नं. 210 खा सीतापुरी, डबलफाटक जनपद-मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश) से प्रकाशित एवं वितरित किया।

संपादक - नरेश राज शर्मा मो. 9027776991

इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं सम्पादक हेतु पीआरबी एक्ट के अन्तर्गत उत्तरदायी होंगे तथा समस्त

RNI NO- UPBIL/2021/83001

विवाद मुरादाबाद न्यायालय के अधीन होंगे। ज्यूँ न लिखूँ सच समाचार पत्र में सभी पद अवैतनिक है

12 घंटे में वारदात का पर्दाफाश, पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर रची थी पूर्व बीडीसी की हत्या की साजिश

रायबरेली के शिवगढ़ इलाके में हुई पूर्व बीडीसी की हत्या का खुलासा हो गया है। की हत्या कर दी थी। रायबरेली के शिवगढ़ इलाके में हुई पूर्व बीडीसी मनीष कुमार सैनी (38)

की हत्या से 12 घंटे के अंदर ही पुलिस ने मंगलवार में रोड़ा बनने पर मनीष की पत्नी ने प्रेमी के साथ की गोली मारकर हत्या की गई थी। पुलिस ने दोनों डॉ. यशवीर सिंह ने बताया कि महराजगंज कोतवाली अपनी ससुराल शिवगढ़ कस्बे के वार्ड नंबर सात रात में उनकी हत्या कर दी गई। वारदात के ख़ुलासे के प्रभारी बृजेंद्र शर्मा की अगुवाई में टीमें लगाई गईं थीं। रूबी और गांव के ही रहने वाले सुनील को पकड़ा के दौरान खुलासा हुआ कि रूबी और सुनील के बीच जानकारी हो गई थी और वह इसका विरोध कर रहे कई बार मारपीट हुई थी। मृतक मनीष के घरवालों ने लिया था। इस पर रूबी ने पित को रास्ते से हटाने के कार्यक्रम में पहले पति और फिर प्रेमी सुनील को बुला शौच के बहाने प्रेमी सुनील से मिलने के लिए खेत गई को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। इस दौरान रूबी ने 32 बोर की पिस्टल से गोली मारकर पूर्व बीडीसी में प्रयुक्त पिस्टल के अलावा कारतूस, तीन मोबाइल पर जताया था हत्या करने का शक- पूर्व बीडीसी की



को परदा उठा दिया। पुलिस के मुताबिक प्रेम-प्रसंग मिलकर घटना को अंजाम दिया था। पूर्व बीडीसी आरोपियों को गिरफ्तार किया है।पुलिस अधीक्षक क्षेत्र के गरीब का पुरवा निवासी मनीष छह अप्रैल को भवानीगढ के मालिन का पुरवा गांव गए थे, जहां लिए शिवगढ़ प्रभारी बिंध्य विनय रावत और एसओजी पुलिस टीमों ने पूर्व बीडीसी की हत्या में उनकी पत्नी है।एसपी के मुताबिक जांच और आरोपियों से पूछताछ प्रेम-प्रसंग चल रहा था। पति मनीष को इस बात की थे। इसी बात को लेकर मनीष और रूबी के बीच भी रूबी और सुनील को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिए साजिश रची थी और मायके में आयोजित भंडारा लिया। एसपी के मुताबिक छह अप्रैल की रात रूबी थी। शक होने पर पति भी खेत पहुंच गया, जहां दोनों और मनीष के बीच हाथापाई हुई थी। इस दौरान प्रेमी की हत्या कर दी। आरोपियों की निशानदेही पर घटना एक बाइक बरामद की गई है।भाई ने ससुराल वालों हत्या की सूचना पर उनके भाई सतीश मौके पर

पहुंचे थे। भाई ने ससुराल वालों पर मनीष की हत्या किए जाने का शक जताया था। घटनास्थल पर पुलिस जब मौके पर पहुंची तो पत्नी उस तरह गमगीन नहीं दिखी, जैसे पति की हत्या होने पर अममून पत्नी का चीखना चिल्लाना होता है। ससुराल वाले भी मौके पर घटनास्थल पर आने से बच रहे थे। भाई के घटना पर संदेह जताने और ससुराल वालों की हरकतों से पुलिस का शक रूबी पर गया। पुलिस ने रूबी को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की तो उसने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या को अंजाम देने की बात स्वीकार कर ली। बिहार के गया से आरोपी ने 25 हजार में खरीदी थी पिस्टल रूबी अपने प्रेमी के साथ मिलकर काफी समय से पति को ठिकाने लगाने की साजिश रच रही थी। एक माह पहले आरोपी सुनील बिहार प्रांत के गया से 25 हजार रुपये में 32 बोर की पिस्टल खरीदी थी। उसने पहले से ही तय कर लिया था कि वह मनीष की हत्या कर देगा। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने पूर्व बीडीसी को दो गोली मारी थी। दोनों गोली सीने के नीचे हिस्से में लगी थी, जिससे वह खून से लथपथ हो गए थे और उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। जागरण कार्यक्रम के चलते नहीं सुनाई पड़ी थी फायरिंग की आवाज पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गोली मारकर पूर्व बीडीसी की हत्या का खुलासा हुआ तो पुलिस भी दंग रह गई। पुलिस के मुताबिक जांच के दौरान पता चला कि मंदिर में जागरण कार्यक्रम था। जिस समय घटना हुई, उस जागरण चल रहा था। ऐसे में फायरिंग की आवाज लोगों तक नहीं पहुंच पाई जबिक गांव से करीब 200 मीटर दूरी पर ही यह घटना हुई थी। आरोपी सुनील कानपुर नगर के एक होटल में वेटर का काम करता था।

कछला घाट पर गंगा में स्नान करते समय चार श्रद्धालु डूबे, बालक समेत दो की मौत

इसी दौरान बालक समेत चार लोग

गहरे पानी में डूब गए। इनमें दो की

मौत हो गई। बदायूं में कछला गंगा

घाट पर मंगलवार को हादसा हो

गया। राजस्थान से चार श्रद्धालु स्नान

के दौरान पानी में डूब गए। गोताखोरों

ने चारों को बाहर निकाला। परिवार

के लोग इलाज के लिए कासगंज के

सोरों सीएचसी ले गए, जहां डॉक्टर

ने एक बच्चे व युवक को मृत घोषित

कर दिया। जबिक दो को प्राथमिक

उपचार के बाद छुट्टी दे दी।राजस्थान

बहेडिया निवासी महेश अपने परिजनों

के साथ श्राद्ध पूजा व गंगा स्नान

करने तीर्थनगरी सोरो आए थे। श्राद्ध

पूजा व पिंडदान के बाद वह गंगा

स्नान के लिए कछला घाट पहुंचे,

जहां गंगा स्नान करते समय रमेश

पुत्र महेश (12), करन पुत्र दिनेश (23) समेत चार श्रद्धालु गहरे पानी

में जाने के बाद डूबने लगे। यह देख

परिजनों के चीखने चिल्लाने पर

स्थानीय गोताखोरों ने उन्हें कड़ी

मशक्कत के बाद बाहर निकाला।

परिवार के लोग उन्हें सोरों के

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर

पहुंचे। जहां चिकित्सकों ने रमेश और

करन को मृत घोषित कर दिया।

जबिक दो लोगों को प्राथमिक उपचार

के बाद छुट्टी दे दी गई। परिजन दोनों

के शवों का पोस्टमॉर्टम नहीं कराया।

शव लेकर राजस्थान को रवाना हो

गए। चौकी इंचार्ज कछला कपिल

कुमार ने बताया कि चार श्रद्धालुओं

के डूबने की सूचना मिली थी। पुलिस

जब तक पहुंची तो गोताखोरों ने चारों

लोगों को निकाल लिया था। परिवार

के लोग बिना पोस्टमॉर्टम के ही शव

में रह रही पत्नी के सामने की

ऐसी हरकत, सब रह गए दंग

एसीपी सिद्धार्थ गौतम ने बताया कि पुलिस ने युवक के बयान लिए हैं।

फिलहाल कोई तहरीर नहीं मिली है। महिला करीब दो माह से मायके में रह

रही है।उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के लोनी कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले एक

युवक ने अपनी ससुराल में पत्नी से झगड़े के बाद अपनी ही गर्दन पर ब्लेड

मारकर खुद को घायल कर लिया। परिवार वाले उसे अस्पताल लेकर पहुंचे,

जहां उसका इलाज चल रहा है। एसीपी लोनी सिद्धार्थ गौतम ने बताया कि

कॉलोनी निवासी महिला की शादी नोएडा में रहने वाले व्यक्ति से हुई थी।

महिला करीब दो माह पहले अपने मायके आ गई थी। सोमवार को पति

बातचीत करने पत्नी के पास पहुंचा था। बातचीत के दौरान झगड़ा होने की

वजह से पित ने जेब से ब्लेड निकालकर अपनी ही गर्दन पर चला दिया। शोर

मचने पर परिजन व आस पास के लोगों ने पुलिस को सूचना देकर घायल

को उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया। एसीपी सिद्धार्थ गौतम

ने बताया कि पुलिस ने घायल के बयान लिए हैं। फिलहाल कोई तहरीर नहीं

मिली है, लिखित शिकायत मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

लेकर राजस्थान चले गए।

जनपद धौलपुर के ताजपुरा



राजस्थान के जनपद धौलपुर निवासी श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए कछला घाट पर आए थे। मंगलवार दोपहर को सभी श्रद्धालु स्नान कर रहे थे।

धनौली निवासी गुरमिंदर सिंह ने आम जनता का जीना किया दुशवार

क्यूँ न लिखुँ सच- अमरीक सिंह



70 वर्षों से कायम रास्ते पर कर रहा वोल्टे ज का ड्रामा राहगीरों की पिटाई

कर फाड़ कपड़ा, जगत राम को आई चोट लाठी डंडों के साथ हमेशा लडाई झगड़ा पर हो जाता है आमादा, कई बार शिकायत के बाद भी नहीं हुई कार्यवाही ग्रामीणों में भय व्याप्त मना करने पर उल्टे मुकदमे में फसाने की दे रहा धमकी, बताता पुलिस प्रशासन को रखते हैं जेब में घटना घटनास्थल पर पहुंची 100 नंबर की मौके की

कैन्ट विधायक ने साई मंदिर में पूजा अर्चना कर जन्मदिन मनाया

क्यूँ न लिखूँ सच- ब्यूरो बरेली। कैन्ट विधायक संजीव अग्रवाल ने अपने जन्मदिन के अवसर



पर श्री शिरडी साई खाटूश्याम सर्बदेब मंदिर श्यामगंज मे बाबा खाट्रश्याम का श्रंगार कर पूजा अर्चना की। इस अवसर पर मंदिर महंत पंडित सुशील पाठक भी मौजूद रहै। इसके बाद विधायक संजीव अग्रवाल रामगंगा कुष्ठ आश्रम सभी लोगो पूडी सब्जी का प्रसाद वितरण किया । वहीं कैंट विधायक को सिन्दूर का पोधा देकर पंडित सुशील पाठक ने बधाई दी।

स्टांप चोरी में अब्दुल्ला आजम पर 3.70 करोड़ का जुर्माना, रामपुर की डीएम कोर्ट ने सुनाया फैसला

सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम को स्टांप शुल्क चोरी के तीन मामलों में दोषी पाया गया है। डीएम कोर्ट ने उन पर कुल 3.70 करोड़ रुपये का जुर्माना और डेढ़ फीसदी ब्याज समेत धनराशि जमा करने का आदेश दिया है। यह मामला वर्ष 2021–22 में घाटमपुर–बेनजीर क्षेत्र में खरीदी गई जमीनों से जुड़ा

है।स्टांप चोरी के मामले में सपा के पूर्व विधायक डीएम कोर्ट ने उन पर 3.70 करोड़ रुपये का कोर्ट ने तीन मामलों में उन्हें दोषी माना है। स्टांप है। यहां पर सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम अलग-अलग जमीनों पर खरीदे गए स्टांप शुल्क एसडीएम ने डीएम को इस मामले की रिपोर्ट कोर्ट में इस मामले को दर्ज किया गया था। फैसला आ गया है।प्रभारी जिला शासकीय



अब्दुल्ला आजम खां फंस गए हैं। स्टांप चोरी के तीन मामलों में जुर्माना लगाया है। डीएम कोर्ट ने मंगलवार को यह फैसला दिया। चोरी का यह मामला शहर से सटे घाटमपुर-बेनजीर से जुड़ा हुआ ने वर्ष 2021- 2022 में जमीन के चार रकबे खरीदे थे। चार पर चोरी का आरोप लगा था विर्ष 2023 में इस मामले में तत्कालीन भ्जिते हुए स्टांप शुल्क चोरी की रिपोर्ट भेजी थी। इसके बाद डीएम डीएम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही थी। अब इस पर अधिवक्ता (राजस्व) प्रेम किशोर पांडे ने बताया कि सपा के पूर्व

विधायक अब्दुल्ला आजम को तीन अलग जमीनों के मामलों में स्टांप चोरी का दोषी माना गया है। उन पर डीएम कोर्ट ने उन पर 3,70,83708 रुपये का जुर्माना लगाया है। डीएम कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम को डेढ़ फीसदी ब्याज के साथ धनराशि जमा करने के आदेश दिए हैं।

एकादशा का फलाहार का भोग; अर्पित किए गए ये खास आहार

अयोध्या राम मंदिर में मंगलवार को रामलला ने व्रत रखा। एकादशी के दिन बालक राम व्रत रखते रहे हैं। आज उनके लिए विशेष तरह का भोग लगाया गया । राममंदिर में रामलला पांच साल के बालक के रूप में विराजमान हैं। उनकी सेवा-उपासना एक राजकुमार की तरह होती है। एकादशी पर व्रत रहने की परंपरा है इसलिए रामलला भले ही बालक के रूप में विराजमान हैं लेकिन एकादशी पर व्रत रहते हैं। इसी परंपरा के अनुपालन में बालकराम ने इस एकादशी पर भी मंगलवार को व्रत रखा। रामलला को पुजारियों ने अन्य दिनों से भिन्न फलाहार का भोग अर्पित किया। रामलला के ठाठ-बाट का

पेड़ा और अन्य मिठाई से होती है। उन्हें प्रतिदिन सुबह करीब 6=30 बजे बाल भोग लगाया जाता है। चूंकि एकादशी पर रामलला व्रत थे इसलिए बाल भोग में मंगलवार को उन्हें गरी, पति भूल गया कि वह ससुराल छुआरा, किशमिश, काजू, बादाम व मिश्री परोसी गई। दोपहर को आया है... दो महीने से मायके रामलला को राजभोग अर्पित किया

अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है गया। फलाहार राजभोग में उन्हें कुट्ट कि प्रतिदिन उनकी सुबह पंचमेवा, अथवा सिंघाड़े के आटे की पूड़ी, पकौड़ी एवं सेंधा नमक से बनी सब्जी परोसी गई। रात को फलाहारी पूड़ी और सब्जी के साथ खीर भी परोसी गई, जिसे पंचमेवा व मखाना से बनाया गया था।राममंदिर के पुजारी बताते हैं कि रामलला का भोग शुद्ध घी में तैयार किया जाता है। भोग के लिए बनने वाली पूड़ी, सब्जी

है। रामलला को तीन चीजों से परहेज भी है। उनके भोग में लहसुन-प्याज कभी शामिल नहीं होता और न ही मसुर की दाल बनाई जाती है। शेष दालें उन्हें प्रिय हैं। पर्व व त्योहारों पर उन्हें विशेष भोग अर्पित किया जाता है। 12 को होगी निर्माण समिति की बैठक-राममंदिर निर्माण समिति की बैठक 12 अप्रैल को होगी। हर माह निर्माण कार्यों की समीक्षा के लिए दो बार बैठक की जाती है। निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में निर्माण कार्यों की समीक्षा की जाएगी। साथ ही भावी योजनाओं पर भी मंथन किया जाएगा। राममंदिर का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है जबिक मंदिर परिसर के अन्य प्रकल्पों का निर्माण तेजी से चल रहा

अथवा पकौडी सिर्फ देशी घी में बनती

पत्नी से पड़ोसी ने की छेड़छाड़, पुलिस ने नहीं की कार्रवाई तो पति ने जहर खाकर दे दी जान

बड़गांव के एक गांव में यह दर्दनाक घटना हुई। पत्नी से हुई छेड़छाड़ से पित इतना आहत हुआ कि उसने सुसाइड कर लिया। पुलिस उसकी मौत के बाद आरोपी को पकड़ने की बात कह रही हैबड़गांव थाना क्षेत्र के एक गांव में पत्नी के साथ हुई छेड़छाड़ से आहत 50 वर्षीय पित ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। पत्नी के साथ दो दिन पहले पड़ोसी युवक ने छेड़छाड की थी। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया था, लेकिन अभी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई।रिववार को महिला ने थाने में केस दर्ज कराया था। बताया था कि वह अपने मायके जाने के लिए घर से निकली थी। इसी बीच रास्ते में पड़ोसी युवक ने उसके साथ छेड़छाड़ की। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया था। परिजनों का कहना है कि पत्नी के साथ छेड़छाड़ की घटना से उसका पति काफी आहत था।परिवार के लोग भी उसे काफी समझा रहे थे। इसी वजह से मंगलवार सुबह उसने जहरीला पदार्थ खा लिया। हालत बिगड़ने पर परिजन उसे सहारनपुर के निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। वह देहरादून में मजदूरी करता था। सोमवार रात ही घर आया था। परिवार में पत्नी, एक बेटा और दो बेटियां हैं। उधर, थाना पुलिस का कहना है कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। आत्महत्या के कारणों की जांच की जा रही है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए भी दिबश दी जा रही है। जल्दी ही उसे पकड़ लिया जाएगा। पुलिस पर लगाया लापरवाही का आरोप-ग्रामीणों का आरोप है कि अगर बड़गांव पुलिस शुरू में ही घटना के प्रति सतर्कता बरतती तो शायद यह घटना नहीं होती। पुलिस ने केस दर्ज कर खानापूर्ति कर दी। रविवार को आरोपी पक्ष ने उसके घर पहुंचकर समझौते के लिए दबाव भी बनाया था। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

प्रिय सुधि पाठको आप अपना यहाँ शुभकामना सन्देश (Birthday, anniversary, any kind of message) कम कीमत में विज्ञापन <u> छपवाए - 9027776991</u>

संक्षिप्त समाचार

श्यामर डाडा में चल रहा व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार अधिकारी मौन

क्यूँ न लिखूँ सच-घन श्याम प्रसाद शर्मा

श्यामरडाडा पंचायत इन दिनों सुर्खियों में है जो की सरपंच की द्वारा मनमाने तरीके से कराए जा रहे काम जो की अवैधानिक है ऐसा ही एक



मिला जिसमें खसरा 603 खलिहान को रखने के लिए आरक्षित भूमि है पर शासन को गुमराह कर उप स्वास्थ्य केंद्र निर्माण किया जाना है जो कि पूर्णता गलत है सूत्रों कि माने तो

से इस खसरे पर फर्जी तरीके से निर्माण कार्य प्रस्तावित कराया गया इस अवैधानिक काम में अधिकारी भी साथ देते नजर आ रहे हैं पंचायत के किसी भी शासकीय भूमि पर काम कराने से पहले शासन के निर्देश अनुसार जिस जमीन पर काम होना होता उसका नक्शा,खसरा प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाता है लेकिन 603 खसरा शासकीय तो है और इस पर काम कराने से पहले प्रस्ताव में न तो खसरा और न नक्शा लगा फिर भी उस जमीन पर काम प्रस्तावित हो गया कैसे यह जांच का विषय है जबिक शासन की गाइड लाइन में यह वर्णित है कि बिना कलेक्टर के अनुशंसा के इस जमीन पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य या अन्य कार्य में नहीं लिया जा सकता है।तो क्या सरपंच शासन से ऊपर है अगर हा तो कैसे आवेदक द्वारा बताया गया कि इस कार्य की जानकारी लिखित तौर पर थाना देवेंद्रनगर, कलेक्टर पन्ना को दिया जा चुका है जबकि हल्का पटवारी ने न तो आवेदन लिया बल्कि यह कहा कि जो करना है कार्लो शासन को चाहिए कि इस प्रकरण में न्याय संगत कार्य करते हुए इस कार्य में संलिप्त सभी पर कार्यवाही की जाए

रोड की पटरी पर अतिक्रमण को पी डब्ल्यू डी के कर्मचारियों द्वारा हटवाया

क्यूँ न लिखूँ सच-प्रेमचंद जायसवाल

श्रावस्ती मल्हीपुर चौराहे पर कबाड़ी की दुकान की शिकायत पर पीडब्ल्यूडी के कर्मचारियों ने

हट वाय अतिऋमण रोड की पटरी खाली कराई अंतर्गत मल्हीपुर चौराहे पर एक कबाड़ी द्वारा कुछ लोहा इकट्ठा कर



रोड के पटरी पर लगा हुआ था लेकिन जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने तहसील दिवस में किया था और पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी विजय प्रकाश ने दुरभाष पर शिकायतकर्ता से बात किया तो बताया गया कि मैं पुणे में हं मेरा नाम संतोष कुमार वर्मा है शिकायत गलत है इस मौके पर पहुंच कर अतिऋमण को हटाया और चौराहे पर अतिऋमण करने वालों को हिदायत दिया की पी डब्लू डी रोड के पटरी पर आप लोग अतिक्रमण न करें यदि पुन: आऋमण करेंगे तो आप लोगों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी इस संबंध में जेई विनोद कुमार से बात करने पर बताया कि शिकायत मिलने पर अतिऋमण को हटाया गया है और जो लोग पुन अतीऋमण करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जिनका अतिऋमण नहीं हटा है उनका तत्काल प्रभाव से हटाया जाएग

दवा लेकर लौट रही महिला ट्रेन की चपेट में आने से हुई मौत

क्यूँ न लिखुँ सच- ब्यूरो

फरीदपुर बरेली । फरीदपुर से दवा लेकर अपने गांव जा रही एक महिला की रेलवे लाइन पार करते समय ट्रेन की चपेट में आ जाने से उसकी दर्दनाक मौत हो गई। सूचना



पर पहुंची जीआरपी एवं थाना पुलिस टीम ने उसके शब को लाइन से हटवा कर उसका पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए बरेली भेज दिया। थाना क्षेत्र के गांव लौगपुर की रहने वाली 43 वर्षीय महिला मोहिनी देवी पत्नी रूकम पाल सिंह मंगलवार की सुबह समय

लगभग 9=00 बजे फरीदपुर से दवाई लेकर अपने गांव वापस जा रही थी तभी मठिया मंदिर के पास रेलवे लाइन पार करते समय अप लाइन पर आ रही गाड़ी संख्या 15705 की चपेट में आकर उसकी दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पहुंची जीआरपी एवं थाना पुलिस ने महिला के शब को रेलवे ट्रैक से हटवा कर रेलवे यातायात को चालू कराया और महिला के शब की शिनाख्त कराने का प्रयास किया। तभी मृतक महिला के परिजन भी सूचना मिलने पर घटना स्थल पर पहुंच गए और शब की शिनाख्त महिला मोहिनी देवी के रूप में की। जानकारी में आया है कि मृतक महिला मानसिक रूप से बीमार थी उसका काफी समय से इलाज चल रहा था। पुलिस ने महिला के शब का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए बरेली भेज दिया।

सरदार पटेल की विरासत हड़पना चाहती है भाजपा, उन्होंने ही संघ पर प्रतिबंध लगाया था, खरगे का आरोप

खरगे ने कहा कि %कांग्रेस पार्टी संविधान और संविधान निर्माताओं दोनों का सम्मान करती है और जानती है कि इसकी रक्षा कैसे करनी है।% उन्होंने कहा, %सरदार पटेल साहब हमारे दिलों में, हमारे विचारों में बसते हैं। हम उनकी

विरासत को आगे ले जा रहे मल्लिकार्जुन खरगे ने भाजपा और संघ विरासत हड़पने का आरोप लगाया। और संघ देश के नायकों के खिलाफ अध्यक्ष के अनुसार, सरदार पटेल खिलाफ थी और उन्होंने संघ पर कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक हुई। इस दौरान अपने भाषण में सरदार सरकार सांप्रदायिक भेदभाव पैदा के ध्यान भटकाना चाहती है।देश के रही साजिश%मिल्लकार्जुन खरगे ने कई वर्षों से देश के कई नायकों के साजिश की जा रही है। कांग्रेस पार्टी जा रहा है और ये माहौल वो लोग उपलब्धियों के तौर पर दिखाने के भाजपा-आरएसएस पर हमला करते में उनके योगदान के तौर पर दिखाने नहीं है। उन्होंने यह दिखाने की पटेल और पंडित नेहरू के बीच अच्छे सच्चाई यह है कि वे एक ही सिक्के और दस्तावेज उनके सौहार्दपूर्ण सरदार पटेल ने संघ पर लगाया था



किया कि दोनों के बीच लगभग रोजाना पत्राचार होता था। नेहरू जी सभी मामलों में उनकी सलाह लेते थे। नेहरू जी पटेल साहब का बहुत सम्मान करते थे। अगर उन्हें कोई सलाह लेनी होती तो वे खुद पटेल जी के घर जाते थे।% उन्होंने कहा कि पटेल की विचारधारा आरएसएस के विचारों के विपरीत थी और उन्होंने संगठन पर प्रतिबंध भी लगाया था, लेकिन यह हास्यास्पद है कि आज उस संघ के लोग सरदार पटेल की विरासत पर दावा करते हैं।% खरगे ने दावा किया कि महात्मा गांधी और सरदार पटेल ने ही बाबा साहब आंबेडकर को संविधान सभा का सदस्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। खुद आंबेडकर ने 25 नवंबर, 1949 को संविधान सभा में अपने अंतिम भाषण में कहा था कि %कांग्रेस पार्टी के समर्थन के बिना संविधान नहीं बनाया जा सकता था। लेकिन जब संविधान बनाया गया, तो आरएसएस ने गांधीजी, पंडित नेहरू, डॉ आंबेडकर और कांग्रेस की खूब आलोचना की। उन्होंने रामलीला मैदान में संविधान और इन नेताओं के पुतले जलाए। खरगे ने कहा कि %कांग्रेस पार्टी संविधान और संविधान निर्माताओं दोनों का सम्मान करती है और जानती है कि इसकी रक्षा कैसे करनी है।% उन्होंने कहा, %सरदार पटेल साहब हमारे दिलों में, हमारे विचारों में बसते हैं। हम उनकी विरासत को आगे ले जा रहे हैं। हमने इसी सोच के साथ अहमदाबाद में सरदार पटेल संग्रहालय में कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक आयोजित की है।% खरगे ने आगे आरोप लगाया कि आज भाजपा और संघ परिवार के लोग गांधी जी से जुड़ी संस्थाओं पर कब्जा कर रहे हैं और उन्हें उनके वैचारिक विरोधियों को सौंप रहे हैं।

इंस्टाग्राम पर कमाई का ऐसा लालच...कई लोगों की ले उड़ा लग्जरी कारें, शातिर का तरीका जान पुलिस भी चकरा गई

इंस्टाग्राम के जिए लोगों की कारें उड़ाने वाले शांतिर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी इस कदर जाल में फंसाता था कि लोग अपनी लग्जरी कारें उसे सौंप देते थे। शांतिर कारों से कमाई करता था, तरीका जान पुलिस भी हैरान

रह गई।इंस्टाग्राम के जरिए पर ठगी करने वाले गैंग के मंगलवार की सुबह गोकुल निशानदेही पर टीम ने सात साइबर टीम उसके साथी की है।एसएसपी शैलेश कुमार को थाना हाईवे के पन्ना पोखर आशीष ने साइबर थाने में उन्होंने बताया कि थाना गोकुलधाम निवासी वरूण ने का पेज बना रखा है। इसी लोकेश की इनोवा क्रिस्टा प्रत्येक महीने 40 हजार रुपये अभियुक्त वरुण की बातों में इसके बाद उसने अपना मोबाइल फोन बंद कर दिया। उन्होंने बताया। इसके बाद और रिपोर्ट दर्ज कराई। छोटेलाल ने इसे गंभीरता से तलाश में लगा दिया। पुलिस को गोकुल बैराज के पास



किराए पर टैक्सी लगाने के नाम सरगना को साइबर टीम ने बैराज से पकड़ लिया। उसकी लग्जरी कार बरामद की हैं। तलाश में दिबश दे रही पांडेय ने बताया कि 23 मार्च स्थित गोपाल नगर निवासी रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट में कोतवाली के कृष्णा नगर स्थित इंस्टाग्राम पर ओरी कार नाम पेज के माध्यम से उनके चाचा कार को किराए पर लगाने तथा देने का लालच दिया। चाचा आ गए और अपनी कार दे दी। इंस्टाग्राम पर बना पेज और उनके चाचा को शक हुआ तो वह चाचा के साथ थाने गए साइबर थाना प्रभारी निरीक्षक लिया और टीम को आरोपी की ने मंगलवार को आरोपी वरुण खाली मैदान से गिरफ्तार कर

ैं।%कांग्रेस अध्यक्ष

ार सरदार पटेल की

उन्होंने कहा कि भाजपा

ग्राजिश रच रहे हैं। कांग्रेस

की विचारधारा संघ के

।तिबंध भी लगाया था।

गंगलवार को गुजरात में शुरू

ाटेल ने आरोप लगाया कि

भरके असल मुद्दों से लोगों गायकों के खिलाफ रची जा

भारोप लगाया कि %पिछले खलाफ सुनियोजित

के खिलाफ माहौल बनाया

ग्रना रहे हैं जिनके पास अपनी

लए कुछ नहीं है।% उन्होंने इए कहा कि स्वतंत्रता संग्राम

के लिए उनके पास कुछ भी

ताजिश की कि सरदार

ांबंध नहीं थे। जबिक

के दो पहलू थे। कई घटनाएं

नंबंधों के गवाह हैं।%

।तिबंध%खरगे ने दावा

लिया। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर इनोवा क्रिस्टा, ग्रांड विटारा, थार, एसयूवी वेन्यू, अर्टिगा, बोलेरो, आई-10 कार, एक मोबाइल और पेन ड्राइव बरामद की। पूछताछ में उसने अपने साथी का नाम मध्य प्रदेश के ग्वालियर निवासी सुदम बताया। पुलिस उसकी तलाश में दिबश दे रही है। साथ ही आरोपी के सोशल मीडिया प्लेटफार्म के जिए किए गए धोखाधड़ी के मामलों को खोजने में जुटी है। पुलिस ने मंगलवार को आरोपी को कोर्ट में पेश किया। यहां से उसे जेल भेज दिया। कार को गिरवी रखकर भी कमाता था रुपये एसपी क्राइम अवनीश कुमार ने बताया िक आरोपी लोगों को िकराए पर कार लगाने का लालच देने के बाद फरार हो जाता था। कार को दूसरे जिले और प्रदेश में गिरवी रखकर पैसा कमाता था। लाखों रुपये की कार को वह 4 से 5 लाख रुपये में गिरवी रख देता और एक साल बाद धनराशि ब्याज के साथ लौटाने के बाद गाड़ी लेने की कहता। लग्जरी कार 4 से 5 लाख रुपये में एक साल तक चलाने के लालच में लोग फंस जाते और शांतिर को धनराशि दे देते। बताया िक इस तरह वह अब तक सैकड़ों गांडियों को गिरवी रखकर पैसा कमा चुका है। उन्होंने बताया िक आरोपी को मध्य प्रदेश एक बार जेल भेज चुकी है। आरोपी के खिलाफ महाराष्ट्र के कासा खडवली ठाणे में भी मुकदमा दर्ज है। इसके अलावा अन्य आपराधिक इतिहास को खंगाला जा रहा है। गिरफ्तार करने वालों में यह टीम रही शांमिल –साइबर थाना प्रभारी निरीक्षक छोटेलाल, निरीक्षक प्रमोद कुमार, एसआई आशीष मिलक, जितेन्द्र, मोहित वर्मा, हैड कांस्टेबल अनूप कुमार, विशाल कुमार, आरक्षी मयंक यादव की अहम भूमिका रही।

दीपक हत्याकांड: जेल में करवट बदलती रही शिवानी, नहीं खाया खाना, वार्डन को बताई नई बात

पति की हत्यारोपी पत्नी जेल में पहुंचने पर पूरी रात करवटे बदलती रही। उसने खाना भी नहीं खाया। कई घंटे बाद जेल वार्डन के समझाने पर मंगलवार दोपहर को दो रोटियां खाईं। उसने बैरक में बंद महिला कैदियों व वार्डन को हत्या

की सच्चाई भी बताई। आठ साल पुरानी मोहब्बत उतारने वाली शिवानी की रातों की नींद गायब है। बदलती रही। जोकि सो नहीं सकी और रोती आदर्श नगर में किराए पर रहने वाले रेल कर्मी गलाघोंट कर हत्या कर दी थी। हत्या को वह रिपोर्ट में उसका झूठ पकड़ा गया और गला घुटने के बाद सोमवार शाम उसका चालान कर कोर्ट सोमवार की शाम शिवानी जेल में दाखिल हो गुमसुम रही। शाम को बैरक में खाना पहुंचा तो सोई भी नहीं।मंगलवार की सुबह उसके लिए फिर इनकार कर दिया। इसके बाद बैरक में बंद भी बैरक में पहुंची। उसकी काउंसलिंग की गई। गया, समझाने के बाद बमुश्किल से उसने दो के बाद रो रही है। कह रही है कि पति उसके उसने गला दबाया था।शिवानी ने शाम के समय भी रही थी। हालांकि उसकी काउंसलिंग करते बाद उसने दो रोटी खाई हैं। - रविंद्र नाथ, जेलरपति दीपक में बीते आठ सालों से प्रेम संबंध थे। हल्दौर थे। परिवार वालों को पांच साल पहले पता चला नहीं थे। बाद में दीपक ने अपने परिवार को मनाया शिवानी के परिवार वाले भी मान गए थे।



का गला घोंटकर जीवन साथी को मौत के घाट जेल में आने के बाद शिवानी पूरी रात करवट रही बिजनौर जनपद के नजीबाबाद में मोहल्ला दीपक कुमार की शुऋवार को पत्नी शिवानी ने हार्ट अटैक से होना बताती रही। मगर पोस्टमार्टम से मौत होना आया।पुलिस ने 36 घंटे तक पूछताछ में पेश किया गया। जहां से उसे जेल भेज दिया। गई। जेल जाने के बाद वह महिला बैरक में उसने खाने से इनकार कर दिया। रातभर वह नाश्ते में चाय और चना भेजा गया। मगर उसने अन्य महिलाओं ने उसे समझाया। जेल वार्डन इसके बाद मंगलवार दोपहर उसे खाना दिया रोटी खाई। बताया जा रहा है कि जेल में आने साथ मारपीट करता था। झगड़ा होने पर ही कुछ नहीं खाया था। रातभर भी सोई नहीं। रो हुए समझाया जा रहा है। दोपहर में समझाने के ही नहीं, बेटे का भी छूट गया साथ शिवानी और में कॉलेज में पढ़ते हुए दोनों के संबंध हो गए था। दोनों के परिवार शुरुआत में शादी के राजी और उसकी सरकारी नौकरी लगने के बाद आखिरकार जनवरी 2024 में दोनों की शादी

संक्षिप्त समाचार

www.knlslive.com

हत्या के प्रकरण से संबंधित दो नफर अभियुक्त गिरफ्तार

क्यूँ न लिखूँ सच- शैलेंद्र कुमार पांडेय

बहराइच/पुलिस अधीक्षक महोदय राम नारायण सिंह जनपद बहराइच द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए गए अभियान में गिरफ्तारी हेतु टीम गठित करके अभियान को सफल बनाने हेतु दिए निर्देश के ऋम



में श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय ग्रामीण दुर्गा प्रसाद तिवारी व क्षेत्र अधिकारी महोदय महसी डी के श्रीवास्तव के निर्देश में थाना अध्यक्ष संजय कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में मु. आ. सा. 77/25 धारा 103 (1) 352 /351 3/3(5) क्षहरू से संबंधित अभियुक्त गण सिचव अवस्थी पुत्र चिंताराम अवस्थी मृत्युंजय अवस्थी पुत्र महजीत अवस्थी शिवम अवस्थी पुत्र महीप अवस्थी निवासीगढ़ सिपिहिया यूयूली थाना हरदी जनपद बहराइच द्वारा दिनांक 04/04 /2025 को राजन उर्फ् धनु अवस्थी पुत्र स्वर्गीय रामानुजन निवासी सिपिहया प्यूली थाना हरदी जनपद बहराइच को गोली मारकर घायल कर दिया गया था जिसकी मृत्यु दिनांक 5.4.2025 को दौराने इलाज केजीएमयू लखनऊ में हो गई थी अभियुक्त मृत्युंजय स्वास्थ्य पुत्र महजीत अवस्थी पुत्र मु. आ . स.84/25 धारा 3/25 आमर्श एक्ट थाना इकौना जनपद श्रावस्ती पुलिस द्वारा भागते समय गिरफ्तार किया गया है एवं अभियुक्त गण सचिव अवस्थी पुत्र चिंताराम अवस्थी नंबर दो शिवम अवस्थी पुत्र महीप अवस्थी निवासी गण हरदी जनपद बहराइच को थाना हरदी पुलिस टीम द्वारा रमवापुर मोड़ के पास गिरफ्तार कर मा. न्यायालय बहराइच रवाना किया

पत्नी ने मारा थप्पड़, बोली-तेरा चेहरा नहीं देखना...जाकर मर जा, ससुराल से घर लौटे युवक ने दी जान

शाहजहांपुर में ससुराल से घर लौटे युवक ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक के पिता ने बहू और उसके मायके वालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। शाहजहांपुर के रोजा थाना क्षेत्र के लोधीपुर मोहल्ला निवासी 24 वर्षीय निशांत ने सोमवार रात कमरे में दुपट्टे से फंदे से लटककर जान दे दी। जानकारी होने पर परिजनों ने दरवाजा तोड़कर उसे फंदे से नीचे उतारा, लेकिन तब तक उसकी सांसें थम चुकी थीं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा।परिजनों ने बताया कि निशांत की साली का सोमवार को दिन में तिलक का कार्यक्रम था। निशांत की पत्नी अंजू तीन–चार दिन पहले ही अपने मायके सिंधौली के सकुलिया गांव चली गई थी। सोमवार सुबह निशांत अपनी ससुराल गया। वहां से साली का तिलक चढ़ाने के लिए निशांत बंडा के मुरादपुर गांव गया। कार्यक्रम से लौटने के बाद निशांत का



इसके बाद निशांत देर शाम घर लौट आया। कमरे में जाकर उसने दरवाजा बंद कर लिया और फंदे से लटककर जान दे दी। अंदर से कोई आहट नहीं हुई तब परिवार वालों ने निशांत को आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। परिजन दरवाजा तोड़कर अंदर गए तो देखा कि निशांत पंखे के कुंडे से लटका हुआ था। परिजनों ने बताया कि वह तीन भाइयों में सबसे बड़ा था। उसकी एक बहन है। आरोप- मुझे तेरा चेहरा नहीं देखना, जाकर मर जा... पिता कौशलेंद्र कुमार ने थाने में दी तहरीर में बताया कि बेटे निशांत की उसकी ससुरालियों ने बहुत बेइज्जती की है। उसके साथ मारपीट की। बेटे ने बताया कि जब यह बात पत्नी को बताई तो उसने भी बेइज्जती की। थप्पड़ मार दिया। कहा कि मुझे तेरा चेहरा नहीं देखना, जाकर मर जा..., ससुराल वाले बोले> आत्महत्या कर लो, नहीं तो तुम्हें मार देंगे। पिता ने बताया कि बेटे ने अपनी पीठ पर चोट के निशान भी उन्हें दिखाए। परिजनों ने बताया कि निशांत को उसकी ससुराल वाले बहुत परेशान करते थे। शादी में दी बाइक ले गए थे, जो वापस नहीं कर रहे थे। बेटे से रुपये की डिमांड करते थे। छोटे भाई के पास होने पर निशांत खुश था पोस्टमॉर्टम हाउस पर निशांत का भाई अंकित रो पड़ा। उसने बताया कि सोमवार सुबह भाई को बताया था कि वह 11वीं में पास हो गया है। इसको लेकर भाई काफी खुश था। भाई ने मिठाई बांटने के लिए कहा था। रोजा थाना प्रभारी राजीव कुमार ने बताया कि निशांत के शव का पोस्टमॉर्टम कराया गया है। परिजनों ने ससुराल वालों पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और तहरीर के आधार पर मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी।

हो गई। अब छह महीने का बेटा भी है। हत्या के बाद दीपक के परिवार वाले मासूम बालक को अपने संग ले गए। ऐसे में शिवानी से बेटा भी दूर हो गया।

शामली में दबंगों ने किस की फसल और पेड़ के नष्ट पीड़ित ने एसपी से लगाई न्याय की गुहार

शामली शामली के कांधला थाना क्षेत्र के जसाला गांव में एक किसान की लाखों रुपए की फसल और पेड़ को दबंगों



द्वारा नष्ट कर देने का मामला सामने आया है पीड़ित किसान ऋषिपाल ने एसपी कार्यालय पहुंचकर न्याय की गृहार लगाई है ऋषि पाल के पास गांव में तीन बीघा जमीन है जिस पर वह अपने परिवार के भरण पोषण के लिए खेती करता है उन्होंने बताया कि उनकी फसल पर लगे पॉपुलर के पेड़ों को दबंगों ने काट दिया इतना ही नहीं जब उन्होंने पुलिस में शिकायत की तो आरोपियों ने उसकी

गेहूं की फसल को भी बर्बाद कर दिया पीड़ित ने 28 मार्च और 2 अप्रैल को कांधला थाना क्षेत्र में शिकायत दर्ज कराई थी पिछले 10 दिनों से वह ठाणे और अधिकारियों के चक्कर काट रहा है लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई है रिशिपाल का आरोप है कि चौकी चार्ज उन्हें और आरोपी पक्ष को धारा 151 में जेल भेजने की तैयारी कर रहे हैं

पौत्र नें धोखाधड़ी से 78 हजार रूपये सास की मदद से निकाले

लगभग 5 साल पूर्व जिस महिला की मौत हो गयी थी, उसके खाते से उसके ही पौत्र नें धोखाधड़ी से 78 हजार रूपये सास की मदद से निकाल लियें जानकारी होनें पर मृतका खाताधारक की पुत्री नें हंगामा किया मामले में पुलिस नें शिकायत मिलने पर दो को हिरासत में लिया है7थाना नवाबगंज क्षेत्र के ग्राम दौलतपुर निवासी रामकली पत्नी राजाराम की मौत विगत 2020 में ही हो गई थी7 मृतका रामकली का खाता गनीपुर जोगपुर बैंक ऑफ़ इंडिया में खाता हैं7 जिसमे 78,000 जमा थे7 सोनकली का एक पुत्र धर्मेंद्र और चार पुत्रियां थी7 सभी की शादी हो चुकी थी7 सोनकली की एक पुत्री कुसमा देवी निवासी ताजपुर मोहम्मदाबाद बैंक शाखा में अपने मां के खाते में पड़ी धनराशि को चेक करने पहुंची7 लेकिन उसे पता चला की खाते से नकम गायब है7 जिस पर महिला कुसमा बैंक में हंगामा करने लगीर शाखा प्रबंधक अरविंद सिंह ने थाना पुलिस को सूचना दीर थाना पुलिस के कस्बा इंचार्ज गिरीश कुमार फोर्स के साथ बैंक पहुंचे7 सीसीटीवी और बैंक रिकॉर्डिंग में पुलिस को पता चला कि पुत्री कुसमा के पुत्र सतेन्द्र सिंह ने अपनी सास वीरावती निवासी दौलतपुर व एक साथी के सहयोग से नानी के खाते से 78 हजार रूपये निकाले हैं7 जिसके बाद सतेन्द्र नें 48,000 व सहयोग करनें वाले ग्रामीण नें 30 हजार रूपये लिये थे7 पुलिस नें दो को हिरासत में लिया है7 थानाध्यक्ष विद्यासागर तिवारी ने बताया बैंक में फर्जी रूप से अंगूठा लगाकर महिला द्वारा अपने दामाद के सहयोग से पैसे निकाले गए हैं7 और लड़के की मां ने बैंक में हंगामा किया और उसके लड़के ने अपनी सास के फर्जी तरीके से अंगूठा लगवा कर पैसे निकाले हैं7 फिलहाल दो लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ चल रही हैं7 बैंक प्रबंधक से अगर तहरीर मिली तो मुकदमा दर्ज किया जायेगा।

जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी सोमवार को लोहिया महिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया

क्यूँ न लिखूँ सच

। बदइंतजामी देखकर वह नाराज हुये। मरीज के लिए तीमारदार स्ट्रेचर खींचते हुये दिखायी दिये। इस पर डीएम ने व्यवस्था सुधारे जाने के निर्देश दिये। कहा कि अस्पताल में मरीजों की सेवा अच्छे ढंग से की जाये। इसमें कोई लापरवाही न हो। वह फिर निरीक्षण करेंगे। सुधार नहीं पाया गया तो सीधे कार्रवाई की जाएगी। इमरजेंसी को देखते हुये डीएम ओपीडी में पहुंचे। इलाज के लिए महिलाओं की भीड़ थी। उनसे जानकारी की। इस बीच उनकी नजर एक तीमारदार पर पड़ी जो स्ट्रेचर खींच रहा था। इसी पर उन्होंने सीएमएस की क्लास लगा दी। सीएमएस ने बताया कि उन्होंने दो दिन पहले ही चार्ज संभाला है। डीएम ने स्ट्रेचर और व्हील चेयर को लेकर जानकारी की। डीएम पैथोलाजी में पहुंचे। कितनी जांचें हर रोज हो रही हैं, किस तरह की जांचें की जा रही हैं। इस सबको लेकर जानकारी की। एक महिला के खाते में जननी सुरक्षा योजना का पैसा नहीं पहुंचा। वह अस्पताल में जानकारी करने आयी थी । इस बीच डीएम तक यह बात पहुंची तो डीएम ने नाराजगी जतायी। कहा कि समय से महिलाओ के खाते में पैसा पहुंचाया जाये। इसमें कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। काफी देर तक डीएम अस्पताल में रुके और व्यवस्था सुधारने की

विरष्ठ डायट प्रवक्ताओं की दो सदस्यीय टीम ने किया जमुनहा क्षेत्र के कम्पोजिट विद्यालय चौगोई व दामूपुरवा का सहयोगात्मक पर्यवेक्षण

क्यूँ न लिखूँ सच-प्रेमचंद जायसवाल

श्रावस्ती जनपद के जमुनहा क्षेत्र के कम्पोजिट विद्यालय चौगोई का बिंदुवार गहन सहयोगात्मक पर्यवेक्षण किया

जिसमें बच्चों के अधिगम सम्प्राप्ति पर जोर देते हुए आधारशिला, ध्यानाकर्षण व शिक्षण संग्रह पर चर्चा करते हुए पाठयोजना व शिक्षण योजना पर विस्तृत चर्चा परिचर्चा तथा दोनों में अंतर व बिंदुवार व्याख्या कर इस पर अमल करने पर जोर देते हुए विद्यालयी व्यवस्था पर संतोष व्यक्त किया।इस दौरान प्रधानाध्यापक सुरेश प्रसाद,सहायक शिक्षक मनोज कुमार, पुण्डरीक पाण्डेय, शिल्पी,रेनू आरती,अनुदेशक रामनरेश, सुनीता व शिक्षामित्र महेश कुमार



सहित पूरा स्टाफ उपस्थित रहा।डाइट प्रवक्ता ने अन्य विद्यालयों की अपेक्षा यहाँ शिक्षकों के प्रकारान्तर न होने की

हिन्दी साहित्य भारती मेरठ द्वारा एक अन्तरराष्ट्रीय काव्य गोष्ठी आयोजित

क्यूँ न लिखूँ सच-राकेश गुप्ता

शामली। हिन्दी साहित्य भारती मेरठ द्वारा एक अन्तर्राष्ट्रीय काव्य गोष्ठी श्रीराम सरस्वती शिशु मन्दिर ट्रान्सपोर्ट नगर मेरठ में वरिष्ठ साहित्यकार देवेन्द्र देव की अध्यक्षता, बाबा कानपुरी व प्रतिभा त्रिपाठी के मुख्य आतिथ्य में आयोजित

हुई। संयोजन चन्द्रभान मिश्र ने किया। गोष्ठी का संचालन बहुत ही सुगढ कवि अमरनाथ द्विवेदी ने किया। मेरठ, दिल्ली, हरियाणा, गाजियाबाद, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, पिलखुवा, बिजनौर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड आदि के 63 कवि-कवयित्रियों ने अपनी रचनाएँ प्रस्तुत की। सुप्रसिद्ध कवि वागीश %दिनकर %ने अपनी रचनाओं में पढा- #युग की सुप्त शिराओं में कविता शोणित भरती है। वह समाज मर जाता है, जिसकी कविता डरती है



प्रदीप मायूस ने सुनाया- सहरा-सहरा, गुलशन-गुलशन, उपवन-उपवन फिरते हैं । हम खुश्बू के सौदागर हैं, उपवन-उपवन फिरते हैं ।। मेरे मन के बाल्मीकि ने कलम तोड दी यह कहकर, इस बस्ती में रावन-रावन फिरते हैं 🛦 प्रतिभा त्रिपाठी ने श्रंगार की फुलझडियां बिखेरते हुए कहा- ь आमन्त्रण तुम्हे है प्रिय पाओ मेरे मन दुआरे आओ नैन पथ निहारे पिपासा है बरसे मेघ भरती विपाशा है**फ** ओजस्वी कवि प्रीतम सिंह प्रीतम ने सुनाया- **फ**रोक रहे जो देश की उन्नति, बनकर आज बबाल खंडे ।ध्यान दिला दूं आज मैं तुमको, कितने आज सवाल खंडे।। 拓 वरिष्ठ किव देवेन्द्र देव ने दूसरों की रचनाएँ अपने नाम से सुनाने वालों पर करारा व्यंग्य कसा । सुविख्यात कवि बाबा कानपुरी ने एक से बढ़कर एक कईं रचनाएं सुनाकर अपनी छाप छोड़ी। कवि प्रयास ने अपनी उपदेशात्मक शैली में सुनाया। सुविख्यात एवम् उत्कृष्ट कवि चन्द्रभान मिश्र ने समाज की विसंगतियों पर तीक्ष्ण प्रहार किया- \rfloor सभी जगह उत्पात मचा है, कैसे ख़ुशी मनायें। जो समाज को दिशा दे सके, चलती नहीं हवायें इ हास्य कवि अनिल कुमार धीमान पोपट कामचोर ने अपनी रचनाओं से खूब गुदगुदाया-फ्रएक दिन हमने पत्नी से कहा-%हैप्पी वैलेंटाइन डे%। वह तुनक कर बोली नाशिपट्टे! इब तो कुछ देम किव सुधीर जगधर ने राजनीति के कलुष पर वार करते हुए एक कुण्डलिया के। माध्यम से कहा- फ़आगे होंगे देश में विकट बडे हालात राजनेताओं करो इस पर भी कुछ बात इस पर भी कुछ बात घुसे घुसपैठ लाखों कांटों का है पेड मधुर फल क्योंकर चाखो तुष्टिकरण की नीति भली इतनी क्यों लागे पाक बांग्लादेश बनेगा भारत आगे**५**। इस कवि सम्मेलन में अमरनाथ द्विवेदी, अरुण शर्मा वशिष्ठ, विरेन्द्र आजम, सुदेश यादव दिव्य, जख्मी, अमित आहुजा, आशा त्यागी, अखिलेश आदि ने भी समाजोपयोगी रचनायें पढकर शमां बांध

एक साल की कठोर कारावास की सजा से दंडित किया

नशीला पदार्थ रखनें के मामले में अभियुक्त ओ न्यायालय के दोषी करार देकर एक साल की कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है7 फर्रुखाबाद जीआरपी के तत्कालीन एसआई सत्यप्रकाश सिंह ने 22 जनवरी 2019 को

कोतवाली मैनपुरी के मोहल्ला कटरा निवासी विमल पुत्र स्व रामनाथ के खिलाफ नशीला पदार्थ रखने का मुकदमा दर्ज कराया था7 मुकदमें में कहा कि वह सिपाहियों के साथ फर्रुखाबाद रेलवे स्टेशन पर संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग कर रहे थे7 उसी दौरान प्लेटफार्म नंबर 1 के निकट विमल की तलाशी लेने पर उसके पास से 110 ग्राम नशीला पदार्थ डायजापाम व एक चोरी का मोबाइल जेब से बरामद हुआ था7 पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी विमल के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में कोर्ट में



आरोपपत्र दाखिल किया7 विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट अंकित कुमार मित्तल ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनकर गवाह व साक्ष्य के आधार पर आरोपी को दोषी सिद्ध करते हुए एक साल कठोर कारावाम व मान जुर्माना की सजा सुनायी है7

अभियोग मे नामजद अभियुक्त गिरफ्तार

क्यूँ न लिखूँ सच-वीरेंद्र कुमार वर्मा

श्रावस्ती। पुलिस अधीक्षक घनश्याम चौरसिया के निर्देशन में चलाए जा रहे अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध अभियान के ऋम में थानाध्यक्ष मल्हीपुर आशीष कुमार की नेतृत्व में हत्या के अभियोग में नामजद अभियुक्त को

गिरफ्तार किया गया। घटना 02 अप्रैल 2025 को मो० रफीक पुत्र मुन्नू निवासी मधुवन थाना रुपईडीहा द्वारा थाना मल्हीपुर में अपनी 25 वर्षीय पुत्री सुफिया की गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। तत्पश्चात 03 अप्रैल 2025 को रफीक द्वारा दी गई पुन: तहरीर के आधार पर ज्ञात हुआ कि मृतका की शादी लगभग 8 वर्ष पूर्व करीम पुत्र अब्दुल वहाब निवासी रामपुर जब्दी थाना मल्हीपुर से हुई थी, जो वर्तमान में सऊदी अरब में रहता है। पारिवारिक विवादों के चलते



मृतका को कासिम पुत्र गफ्फार निवासी रामपुर जब्दी द्वारा अपने साथी आमिर पुत्र इस्लाम खां निवासी रसूलपुर थाना मटेरा जनपद थाना मल्हीपुर जनपद-श्रावस्ती बहराइच के साथ बहला-फुसलाकर निकाह के बहाने बहराइच ले जाया गया, जहां से भिनगा जंगल ले जाकर उसकी हत्या कर दी गई। तहरीर के आधार पर थाना मल्हीपुर में मु0अ0सं0 112/2025 धारा 103(1), 238 बीएनएस पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचना के दौरान साक्ष्य संकलन के आधार पर नामजद अभियुक्त आमिर खां को गिरफ्तार कर धारा 103(1), 238, 87, 3(5) बीएनएस में न्यायालय रवाना किया गया।

नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन

क्यूँ न लिखूँ सच-प्रेमचंद जायसवाल श्रावस्ती कमांडेंट 62वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल भिनगा के दिशा–निर्देशन में %जी% समवाय भैसाहीनाका के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत ग्राम दक्षिणी टिटहिरिया के उच्च प्राथमिक विद्यालय में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत जागरूकता

कार्यक्रम का आयोजन किया उप निरीक्षक राजेंद्र कुमार के नशा के दुष्परिणामों की विस्तृत कि किस प्रकार नशा न केवल प्रभावित करता है, बल्कि । सभी को यह संदेश दिया स्वस्थ, समृद्ध एवं खुशहाल अनुरोध किया गया कि वे बच्चों को भी इससे बचाएं विद्यालय के प्रधानाध्यापक छात्र-छात्राएं एवं ग्रामवासी



गय। इस अवसर पर समवाय प्रभारी द्वारा उपस्थित छात्रों व ग्रामीणों को जानकारी दी गई और बताया गया शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को आर्थिक क्षति का भी कारण बनता है। गया कि नशा से दूर रहकर ही एक जीवन संभव है। उपस्थित ग्रामीणों से स्वयं भी नशा से दूर रहें और अपने इस जन-जागरूकता कार्यक्रम अशोक कुमार, अन्य शिक्षकगण, उपस्थित रहे ।

संक्षिप्त समाचार

www.knlslive.com

युवक का शव नाले में मिला, हत्या की आशंका; अगले सप्ताह होने वाला था तिलक समारोह

क्यूँ न लिखूँ सच-भूपेन्द्र तिवारी

मिहीपुरवा, बहराइच जनपद के मोतीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत चौधरी गांव के एक 19 वर्षीय युवक का शव दो गांवों के बीच स्थित एक सूखे नाले में संदिग्ध अवस्था में मिला है। युवक की पहचान रोहित गुप्ता पुत्र राम सनेही

हुई है। पुलिस को शव जमीन पर पड़ा मिला, जबकि गले में थी, जो पास के पेड़ की टहनी से बंधी



हुई थी। इस स्थिति ने आत्महत्या के रूप को संदेहास्पद बना दिया है, जिससे परिजन हत्या की आशंका जता रहे हैं। परिवार के अनुसार रोहित का तिलक समारोह 15 अप्रैल के बाद प्रस्तावित था, जिसके लिए वह पिछले कुछ दिनों से घर की रंगाई-पुताई स्वयं कर रहा था। मंगलवार सुबह वह रंगाई का कार्य कर रहा था, लेकिन कुछ समय बाद वह घर से अचानक लापता हो गया। दोपहर करीब एक बजे के आसपास उसका शव चौधरी और बस्थनवा गांव के बीच स्थित सूखे नाले में पाया गया। स्थानीय लोगों ने जब शव को देखा तो पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शव की स्थिति और घटनास्थल की परिस्थितियाँ आत्महत्या की बजाय हत्या की ओर इशारा कर रही हैं। खासकर यह बात कि रस्सी पेड़ से बंधी थी लेकिन शव जमीन पर पड़ा था, कई सवाल खड़े करती है। थानाध्यक्ष आनंद कुमार चौरसिया ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा हो सकेगा। उन्होंने यह भी पुष्टि की कि मृतक की शादी तय हो चुकी थी और अगले सप्ताह तिलक समारोह होना था। इस खबर से पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है, और परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। परिजन व ग्रामीणों ने निष्पक्ष जांच की मांग की है और रोहित की मौत के

रिजर्व पुलिस लाइन परेड ग्राउंड पर किया गया मंगलवार की परेड का निरीक्षण, तत्पश्चात अर्दली रूम कर दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश

क्यूँ न लिखूँ सच-भूपेन्द्र तिवारी

अपर पुलिस अधीक्षक श्री दुर्गा प्रसाद तिवारी द्वारा मंगलवार की परेड

लाइन बहराइच स्थित परेड ग्राउंड पर कराते सलामी ग्रहण करने के उपरांत पुलिस बल की दौड़ कराई गई एवं टोली वार परेड ड्रिल का



निरीक्षण करते हुए परेड ड्रिल के संबंध में निर्देशित किया गया। महोदय द्वारा पुलिस लाइन परिसर की साफ सफाई का जायजा लिया गया तथा सम्बन्धित को बेहतर साफ–सफाई हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गये तत्पश्चात क्वार्टर गार्ड पर सलामी ली गयी तथा शस्त्रों के रख रखाव का निरीक्षण कर उनकी साफ-सफाई हेतु दिशा निर्देश दिए गए, इसके अतिरिक्त महोदय द्वारा परिवहन शाखा का निरीक्षण किया गया साथ ही मेस का निरीक्षण कर भोजन की गुणवत्ता को चेक किया गया । तत्पश्चात महोदय द्वारा पुलिस लाइन के आदेश-कक्ष में सभी गार्द रजिस्टरों को चेक करते हुए गार्द की सुरक्षा के सम्बन्ध में सभी गार्द कमांडरों को आवश्यक दिशा

जनता दर्शन में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा सुनी गई जन समस्याएं

क्यूँ न लिखूँ सच-भूपेन्द्र तिवारी

बहराइच/पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जनता दर्शन में आये फरियादियों की समस्याएं/




जाँच निस्तारित करने हेतु आदेशित किया गया ।



If you are also eating too What will happen if you eat many almonds to sharpen just one raw onion every day your brain, then there can throughout the summer? Its be 4 major health problems 7 benefits will surprise you

Eating almonds daily is considered good for health. However, excess of anything always causes harm. Similarly, almonds are also there. Excessive consumption of almonds can cause digestive problems (Almonds Side Effects). It contains a good amount of fiber. So if you eat too many



almonds, be careful. Almonds can also harm health. Excess of anything is health. harmful for **Excessive consumption of it** can cause many problems. Almonds provide many benefits to the body. Even today people recommend eating cashews and almonds to improve health. Almonds rich in nutrients help in keeping the body fit and keeping many diseases away. There are many benefits of eating almonds, from sharpening the brain to making the heart healthy.

It contains nutrients like protein, fiber, vitamin E, magnesium and healthy fats which give energy to the body and sharpen the mind. As it is said that excess of anything can be harmful for your health. Same is the case with almonds. If something has benefits, then it will also have some disadvantages. If you eat almonds in limited quantity, then it gives only benefits to health, but excessive consumption of it can cause many problems. Today in this article, we are going to tell you about the disadvantages of eating more almonds than required. Let us know in detail- Digestive problems Almonds are high in fiber. If you start eating 15-20 almonds instead of 5-6 almonds a day, then it can affect your digestive system. This can cause problems like gas, bloating, indigestion and cramps. Risk of weight gainAlmonds are rich in healthy fats. Their calories are also very high. Eating too many almonds accumulates extra calories in the body, which can lead to weight gain. If you are trying to lose weight, eat almonds in limited quantities. Kidney Stones Almonds contain oxalate and eating too many almonds increases the level of oxalate, which can accumulate in the kidney and cause kidney stones. Therefore, it is advisable to consume almonds in limited quantities. Possibility of allergy Some people are allergic to nuts. Eating almonds can be dangerous for such people. This can cause problems like skin rashes, itching, swelling, difficulty in breathing or stomach pain. If you are allergic to nuts, it would be better to stay away from almonds. How many almonds should you eat in a day? - To stay healthy, you must eat about 5 to 6 almonds in a day. Almonds should always be eaten after soaking them in water. You can get double benefit from this.

Onion is a vegetable found in almost every Indian kitchen. Everyone eats it with great fondness. If you eat one onion daily during the summer days, then you will get many benefits from it. Without it, the taste of many dishes seems tasteless. Today we have told you about raw onion

in summer. Raw onion is great to include in the diet. Onion has a cooling effect, it protects from heat stroke. No vegetable or dal tastes tasty without onion. The summer season has started. In summer, one has to take extra care of health. Actually, many diseases can surround us in summer. In such a situation, the body needs more nutrition. People include juicy fruits,



seasonal vegetables in the diet. With this, they can take care of their health to some extent. It is said that one should drink four to five liters of water during summer days. This will keep your body hydrated. But do you know that eating onions can also provide many health benefits? Onion is beneficial in many ways from the health point of view. You must have often heard people say that eating onions especially in summers protects against heat stroke. Some people also believe that keeping onions in the pocket can also protect against heat stroke. However, the truth is that instead of keeping it in the pocket, eating onions in raw or cooked form provides many benefits to the body. Let us know about their benefits in detail- Onions are rich in nutrients. Sulfur, fiber, potassium, calcium, vitamin B and C are found in good quantities. Apart from this, onions contain many such nutrients which can be helpful in reducing the cholesterol level in the body. Protect from heat stroke: The risk of heat stroke increases in summer. In such a situation, raw onion keeps the body temperature balanced and helps in preventing heat stroke. You can also eat it as a salad. Provides coolness to the body Onion contains natural cooling elements, which reduce the heat of the body. This keeps you fresh throughout the day. Helpful in digestion Raw onion contains a good amount of fiber. It improves digestion and also provides relief from problems like constipation. Strengthens immunity The antioxidants and vitamin-C present in onion strengthen the body's immunity, which keeps you away from diseases occurring in the summer season. Also beneficial for skin and hair Raw onion can also be very beneficial in making the skin glowing and strengthening the hair. The sulfur present in it is beneficial for both skin and hair. Controls blood sugar Raw onion can help control insulin levels, which can be beneficial for diabetes patients. How to include it in the diet: As a salad, mix it with curd with lemon and salt, grind it with garlic in chutney like raita and eat it in the form of raw slices.

Pollution can harm the health of the baby and the mother, keep these things in mind for protection

Nothing is more important than health. Therefore, World Health Day (World Health Day 2025) is celebrated every year on 7 April to make people aware about their health. This year's theme focuses on the health of maternal and new born babies. Let's know about a related issue, how pollution can be dangerous during pregnancy. World Health Day is celebrated every year on 7 April. World Health Day will focus on maternal and new born health this year. Pollution can cause many problems during pregnancy. You must have heard this from the elders and with increasing age, you must be realizing this. World Health Day (World April to make people aware about health. This year the theme of World Health Day (World Health Day 2025) is celebrated every year on 7 April to make people aware about health. This year the theme of World Health Day (World Health Day 2025) is celebrated every year on 7 April to make people aware about health. This year the theme of World Health Day (World Health Day 2025) is celebrated every year on 7 April to make people aware about health. This year the theme of World Health Day (World Health Day 2025) is celebrated every year on 7 April to make people aware about health. This year the theme of World Health Day (World Health Day 2025) is celebrated every year on 7 April to make people aware about health. This year the theme of World Health Day (World Health Day 2025) is celebrated every year on 7 April to make people aware about health. This year the theme of World Health Day (World Health Day 2025) is celebrated every year on 7 April to make people aware about health. This year the theme of World Health Day (World Health Day 2025) is celebrated every year on 7 April to make people aware about health. This year the theme of World Health Day (World Health Day 2025) is celebrated every year on 7 April to make people aware about health. This year the theme of World Health Day (World Health Day 2025) is celebrated every year on 7 April to make people aware about health. This year the theme of World Health

April to make people aware about health. This year the theme of World Health Day (World Health Day 202) health. Pregnancy is a time when it is very important to take care of the health of the woman not only for situation, the pollutants and toxins present in the environment during this time can pose serious risks for and pollution). Air pollution, water pollution, harmful chemicals and household toxins can harm the women. Let us know about this from Dr. Shilpa Ghosh (Unit Head and Senior Director, Department of Super Specialty Hospital, Dwarka). Air pollution and maternal healthHarmful particles present in the air nitrogen dioxide (NO2) and sulfur dioxide (SO2) affect the respiratory system of a pregnant woman.

from the to he which did determined to the which

pollutio

बन सकता है प्रदूषण?

weight and miscarriage. Toxins in water and soilPolluted water may contain heavy such as lead, arsenic and mercury, which are harmful for a pregnant woman. These metals can accumulate in the body and cause hormonal imbalances, kidney problems and damage to the system. Similarly, pesticides and chemicals present in the soil can get into the food through which can have a negative effect on the baby. Effects of household pollution There are many pollutants present inside the house, such as: Smoke from the kitchen (while cooking) Harmfu. chemicals present in cleaning products Gases emitted from paints, glues and synthetic scented these elements deteriorate the indoor air quality, which can cause problems like asthma, headache are more sensitive to these, as their immunity is weak during this time. Effects on mental

her but also for her unborn child. In such a both the mother and the child (Pregnancy physical and mental health of pregnant **Gynecology and Obstetrics, Max** such as PM2.5, PM10, These small with the blood and reach placenta, hinder the development A i r increases preterm low birth metals nervous crops,

products All and fatigue. Pregnant women healthPollution affects not only

physical health, but also mental health. Air pollution can increase stress and anxiety, which can be harmful during pregnancy. Pollution increases the risk of postpartum depression in women. Preventive measures Although it is difficult to avoid pollution completely, the risk can be reduced by taking some precautions - Spend time in places with clean air and stay away from crowded areas. Ventilate the house and use air purifiers. Drink pure water and eat organic foods. Choose natural options (such as lemon, vinegar, etc.) instead of chemical-free cleaning products. Wear a mask when going out, especially on highly polluted days.

Want Desi Humor, Funny Gang and Comedy without Logic? Then don't miss these 5 great movies on OTT

OTT lovers like to watch movies and series sitting at home for entertainment. Everyone likes the comedy genre. Especially when the mood is bad, such movies must be watched. Today we

are sharing with you a list of some of the home on the OTT platform (Best Comedy will instantly fix the bad mood. Fans are want to watch a movie for entertainment, the year 2000, many multi-starrer movies comedy. If you want to enjoy Desi style people used to watch such movies more who waits for a picture to come on the TV right. Here we are talking about on which hit films. Phir Hera Pheri The comic timing considered a classic even today. The film This is the reason why the sequel of this this film starring Akshay Kumar and Sunil The mess in which the lead stars of the can force the audience to laugh. Bhagam Bhagam Bhag is often mentioned. The name of Bhagam Bhag of the year comedy genre. In this, laughter and then you can enjoy it on the OTT platform a quest and the fun that happens during



best comedy movies which you can watch sitting at Movies on OTT). The best comedy movies on OTT waiting for the sequel. If the mood is bad or if you then everyone's first choice is comedy movies. After have been released, in which you get a full dose of comedy, then you can enjoy these movies. Earlier on TV. Now a thought will come to your mind that channel in today's time. You have thought absolutely OTT platform you can enjoy these comedy genre of the trio of Raju, Shyam and Babu Rao is has received a lot of love from the audience on TV. movie is being discussed these days. You can watch Shetty on the OTT platform Amazon Prime Video. movie get stuck in the greed of doubling the money Bhag Akshay Kumar and Govinda starrer film Anyone's mood can be good after watching this film. 2006 is included in the list of the best films of the uproar go hand in hand. If you want to enjoy it, Amazon Prime Video. Dhamaal Four friends go on this is worth praising. If you want a comedy film

without logic, then Dhamaal is perfect for you. This film, released in the year 2007, can be seen on Amazon Prime Video. Bin Bulaye Baraati If you want to watch a desi comedy action film, then watch Bin Bulaye Baraati released in the year 2011. It includes seasoned actors like Rajpal Yadav, Aftab Shivdasani, Shakti Kapoor, Om Puri, Shweta Tiwari, Sanjay Mishra and Gulshan Grover. You can watch this movie at home on the OTT platform Amazon Prime Video. Welcome The pairing of Majnu and Uday Bhai was liked in this film. The strong performances of Nana Patekar and Anil Kapoor made it a classic comic film. Apart from this, the acting of Akshay Kumar and Katrina Kaif also got appreciation from the people. Its name is included in the list of those films which you can watch many times sitting at home. Let us tell you that you can watch it on the OTT platform Netflix.

'This will happen...' Will the trio of friends come together again? Hrithik Roshan gave a hint on 'Zindagi Na Milegi Dobara 2'

Bollywood actor Hrithik Roshan is in the news these days for Krrish 4. Through this, the actor is going to start his career as a director. Cinema lovers are eagerly waiting for the sequel of the actor's film Zindagi Na Milegi Dobara 2. Now the actor himself has given a big update on this movie. Hrithik Roshan will direct Krrish Fans are waiting for the sequel of his other film The actor gave a hint on the second part of Zindagi Na Milegi Dobara When it comes to showing great action and dance in films, Hrithik Roshan's name is taken first. He has worked in many great films on the big screen. He is also known for the superhero franchise Krrish. Recently, Rakesh Roshan informed that Hrithik will take the responsibility of directing his hit franchise film Krrish 4. Fans are eagerly waiting for this. Recently, the actor himself reacted to this and said that he is feeling a little nervous about it. For this he needs the love of the people. Now he has given a big update on the sequel of Zindagi Na Milegi Dobara. Let us know whether the work on the second part of this most awaited film has started or not. Fans love this film of Hrithik Roshan. If cinema lovers get a hint related to the sequel of the film Zi



love this film of Hrithik Roshan. If cinema lovers get a hint related to the sequel of the film Zindagi Na Milegi Dobara, then their happiness knows no bounds. Recently, the three actors of this film, Hrithik Roshan, Farhan Akhtar and Abhay Deol were seen together. People felt that this time the film will definitely be announced. After this it was revealed that all three had come together for an advertisement. Hrithik Roshan starrer Zindagi Na Milegi Dobara, released in 2011, is still liked on OTT. Fans of this film often watch it for entertainment. Recently, Hrithik Roshan participated in the 'Rangotsav' event organized in Atlanta, America. During this, he talked about the sequel of the film. When he was asked to say one word on the film, he said, 'I will tell it in five words. Freedom from the restrictions of the mind. This is Zindagi Na Milegi Dobara.' What did Hrithik say on the sequel of the film? At the event, fans questioned Hrithik about the sequel of his popular film. In response to this, he smiled and said, 'My instincts are saying that this will happen. I don't know when it will happen. But it will happen.' This video of Hrithik Roshan is going viral on the social media platform X. This hint related to the sequel of the film is enough to increase the excitement of the fans.

Kolkata's Manasi Ghosh became the winner of Indian Idol 15, votes received from the public gave her the title

Manasi Ghosh of Kolkata became the winner of the singing reality show Indian Idol 15. Bengal dominated the top 5 and in the final match, Manasi left behind Subhajit Chakraborty and



Sneha Shankar and won the trophy. Manasi got Rs 25 lakh and a car as a prize. After the victory, she thanked her parents, guru and audience and expressed her desire to make a career in Mumbai. Manasi Ghosh got 25 lakhs and a car Subhajit and Sneha came second and third in the show Three contestants from Bengal reached the top 5 Kolkata's Manasi Ghosh was declared the winner of the singing reality show Indian Idol 15 on Sunday. Of the top five participants who reached the final, Subhajit Chakraborty of Kharagpur came second while Sneha Shankar of Mumbai came third. There was a tough competition between Manasi, Subhajit and Sneha Shankar in the final, but Manasi was declared the winner on the basis of votes received from the public. She got a cheque of Rs 25 lakh and a car as a prize along with the winner's trophy. Subhajit and Sneha, who were in second and third place, got a cheque of Rs 5 lakh each as a prize. This year, Bengal dominated the final of the show. Three out of the top five participants were from Bengal. Manasi and Subhajit's friendship was before coming on the show and both considered each other as brother and sister in the show. What did Manasi say after winning? After becoming the winner, Manasi said, "I still can't believe that I have won this trophy. I am lucky that I have received so much love from my parents, my guru, the audience and the judges. Right now, a lot is going on in my mind and I am unable to say anything." 24-year-old Manasi was fond of both dance and singing since childhood. However, she chose singing over dancing and proved herself by becoming an Indian Idol. Now she plans to stay in Mumbai to pursue a career in music. Mansi, who idolises Sonu Nigam, dreams of recording a song with him.